



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 06—सितम्बर 12, 2003 (भाद्रपद 15, 1925)  
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 06—SEPTEMBER 12, 2003 (BHADRA 15, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 06 सितम्बर 2003

सं. 495, दिनांक 31 जुलाई 03.—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (हि.प्र.: 69) के अधिकारी श्री अजय प्रसाद का गृह मंत्रालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 14 जुलाई, 2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. बी. ठाकुर  
निदेशक

सं. 496, दिनांक 31 जुलाई 03.—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश: 68) की अधिकारी श्रीमती उमा प्रियंका का प्राचीन विद्युत्कारण विभाग से स्थानांतरण होने पर उन्हें 9.7.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान: 83) के अधिकारी श्री पी के आनंद का माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग से स्थानांतरण होने पर उन्हें 3.7.2003 (पूर्वाह्न) से 8.5.2006 तक या अगले आदेश

जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (म.प्र.: 74) के अधिकारी श्री सुधीर नाथ का मध्य प्रदेश सरकार से स्थानांतरण होने पर उन्हें 13.6.2003 (पूर्वाह्न) से 12.6.2008 तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार: 83) के अधिकारी श्री सी. के. मिश्रा को उनके कार्यकाल की बीच अवधि के लिए अर्थात् 12.10.2004 तक या जब तक उनके द्वारा रक्षा मंत्री के निजी सचिव के पद पर कार्य करते रहने तक, इनमें से जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव की रैंक और वेतन में रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडिस) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय लागत एवं लेखा सेवा (1988) की अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्रीमती रेणु सी. देशपाण्डे को 18.6.2003 (पूर्वाह्न) से 1.9.2004 तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री हरबंश सिंह का शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 23 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव श्री बी. एस. दाहिया को रक्षा मंत्रालय में 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में 1.7.2003 से 31.12.2003 तक की आगामी अवधि के लिए या इस पद पर नियमित बरिष्ठ प्रधान निजी सचिव होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर बरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति का जारी रहना पूरी तरह से तदर्थ आधार पर है और इस पद पर अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के बरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में बरिष्ठता के दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री वी. के. लूथरा का वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 9 मई, 2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूची तैयार किए जाने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है। अधिकारी को इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूची में अपना नाम शामिल करने का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के लिए चयन सूची में श्री वी. के. लूथरा का नाम शामिल किए जाते समय उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति का प्रयोग बरिष्ठता का दावा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अधिकारी श्रीमती सहेली घोष का डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 3 जुलाई, 2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूची तैयार किए जाने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है। अधिकारी को इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूची में अपना नाम शामिल करने का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 के लिए चयन सूची में श्रीमती सहेली घोष का नाम शामिल किए जाते समय उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति का प्रयोग बरिष्ठता का दावा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एम. एम. सिंह का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग से स्थानांतरण होने पर उन्हें 20.05.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री दीपक सज्जाण का नाम वर्ष 2001 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (परीक्षा कोट) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें 3 जून, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक, 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक (तदर्थ अनुभाग अधिकारी) श्री बी. एस. दाहिया का नाम वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड (वरिष्ठता कोट) की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें 17 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री राजीव कुमार का नाम वर्ष 2001 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (परीक्षा कोट) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें 30 मई, 2003 के अपराह्न से अगले आदेश जारी होने तक, 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का विलयित ग्रेड 'क' और 'ख') के पद पर नियुक्ति की अवधि और आगे बढ़ाते हैं:--

क्रम.सं.	अधिकारी का नाम	से	तक
1.	श्री एस. के. कैफ़ी	1.4.2003	30.6.2003
2.	श्री जे. पी. माथुर	1.4.2003	30.6.2003
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	1.4.2003	30.6.2003
4.	श्री नरेन्द्र चड्ढा	1.4.2003	30.6.2003
5.	श्रीमति हरविन्दर चावला	1.4.2003	30.6.2003

वी. सरस्वती  
अवर सचिव

गु.आ.न.नि/नौसेना

सं. 497, दिनांक 01 अगस्त 03.--राष्ट्रपति सहर्ष श्री मुंशी राम, सहायक को दिनांक 29.08.02 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी वर्ग ख राजपत्रित के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष श्री राम सींह, सहायक को दिनांक 28.02.02 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी वर्ग ख राजपत्रित के रूप में नियुक्त करते हैं।

सन्तोष दासगुप्ता  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी/प्रशा.

## (थल सेना विभाग)

सं. 498, दिनांक 06 अगस्त 03.--थल सेना अनुदेश 15/79 तथा इसमें जारी संशोधन सेना अनुदेश 5/96 के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

## नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

लैफ्टि के पद पर (परख पर)

अशोक कुमार, डी एस-12097एच--03.04.03

नेहा गुप्ता, डी एस-12098एल--04.04.03

सिरी एन जी कृष्ण कुमार नायर, डी एस-12099एन--10.04.03

रितू कालड़ा, डी एस-12100एक्स--18.04.03

गगन काहलौ, डी एस-12101ए--24.04.03

महालक्ष्मी एच एस, डी एस-12102एच--01.05.03

जे. एल. शर्मा

ले. जनरल

डी जी डी एस

सं. 499, दिनांक 05 अगस्त 03.--राष्ट्रपति सहर्ष यथासंशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

## नियमित सेना

स्थायी कमीशन

फ्लाईंग अफसर के पद पर (परख पर)

सकेस देवरा (एम आर-07717के) (26911), ए एम सी--  
29.04.2002

अनुज सिंहल (एम आर-07718एम) (26912), ए एम सी--  
29.04.2002

लैफ्टिनेट के पद पर (परख पर)

आशीष पांडे (एम आर-07842एन), ए एम सी--22.02.2003

पुनीत सक्सेना (एम आर-07846के), ए एम सी--22.02.2003

कु. सुमेधा धर (एम आर-07847एम), ए एम सी--22.02.2003

अनीष मोहिमन (एम आर-07848पी), ए एम सी--22.02.2003

कु. टी पी शशीकला (एम आर-07849एक्स), ए एम सी--  
22.02.2003

ई सिबि (एम आर-07850एम), ए एम सी--22.02.2003

मदामूषी श्याम (एम आर-07851पी), ए एम सी--22.02.2003

गोविंद मैनन (एम आर-07852एक्स), ए एम सी--22.02.2003

रविन्दु प्रभात तिवारी (एम आर-07853ए), ए एम सी--22.02.2003

एम. श्रीवास्तव

ब्रिगेडियर

उप. डी.डी.एफएमएस (पी)

सं. 500, दिनांक 31 जुलाई 03.--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल-95) के अधिकारी श्री पुनीत कुमार को 18 अप्रैल 2003 से 18 अप्रैल, 2004 तक एक वर्ष के लिए या उनके रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. सरस्वती

अवर सचिव

सं. 501, दिनांक 31 जुलाई 03.--भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान-68) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग में सचिव श्री एन. एस. सिसोदिया की नियुक्ति आर्थिक कार्य विभाग में सचिव (बैंकिंग और बीमा) के पद पर अनुमोदित होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 7.7.03 (अपराह) से विल्ट मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार-69) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में अपर सचिव श्री प्रत्यूष सिन्हा की नियुक्ति गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) के पद पर अनुमोदित होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 1.7.2003 (पूर्वाह) से गृह मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (कर्नाटक-68) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में विशेष सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह की नियुक्ति विनिवेश मंत्रालय में सचिव के पद पर अनुमोदित होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 1.7.2003 (पूर्वाह) से विनिवेश मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (राजस्थान-81) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव का बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त होने पर उनकी सेवाएं 13 जून 2003 (पूर्वाह) से राजस्थान सरकार को सौंपी जाती हैं।

भारतीय रक्षा संपदा सेवा (80) की अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में निदेशक श्रीमती एस. एस. पुजारी का रक्षा मंत्रालय में कार्यकाल/स्वीकृत अर्जित अवकाश के समाप्त होने के बाद उनकी सेवाएं 23.6.2003 (पूर्वाह) से रक्षा संपदा महानिदेशालय, पश्चिम ब्लॉक-4, आर के पुरम्, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

2. रक्षा मंत्रालय की दिनांक 28.5.2003 की समसंख्यक अधिसूचना को रद्द किया जाता है।

वी. सरस्वती

अवर सचिव

## (थल सेना विभाग)

सं. 502, दिनांक 01 अगस्त 03.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारियों को एक वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक पूरा करने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत अल्पकालीन में पक्का करते हैं:--

## नियमित सेना

## सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

## (अल्पकालीन)

कैप्टन ए मिसूरिया, डी एस-12016एक्स--15.05.2000

कैप्टन जे आर बालासुब्रामनियम, डी एस-12054एन--10.03.2002

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारी को दो वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक पूरा करने पर सेना अनुदेश 37/78 के अन्तर्गत स्थायी कमीशन में पक्का करते हैं:--

## नियमित सेना

## सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

## (स्थाईकरण)

कैप्टन सी एस चट्टोपाध्याय, डी आर-10517वाई--19.10.2000

जे. एल. शर्मा

ले. जनरल

डी जी डी एस

## (थल सेना विभाग)

सं. 503, दिनांक 04 अगस्त 03.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं:--

## नियमित सेना

## कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सूबेदार (वाई आफ एस) के रैंक में

हवलदार एन सेल्वाराजू (सं. 15353033एक्स अब जेसी-374999वाई), 22 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)।

हवलदार पाटिल विजय सिंह (सं. 14262161एल अब जेसी-375004डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003।

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 15366760एच अब जेसी-375005वाई), 16 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार कोटा नारायणा डोरा (सं. 14267452पी अब जेसी-375030एक्स), 12 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार गुलाल सिंह (सं. 15360154एफ अब जेसी-375031ए), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार एन सुरेश (सं. 15356481पी अब जेसी-375032एच), 01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार थंगाराजा एस (सं. 15378489एफ अब जेसी-375007के), 01 फरवरी 2003।

हवलदार रामफल सिंह (सं. 15365619ए अब जेसी-375009पी), 05 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार कृष्ण कुमार एस (सं. 15363534एल अब जेसी-375014ए), 20 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार लक्ष्मीस सी एन (सं. 15369616के अब जेसी-375016एल), 17 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार प्रन्निर सल्वम एस (सं. 15369875एम अब जेसी-375018डब्ल्यू), 30 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार धनंजय सिंह (सं. 15367881एफ अब जेसी-375022वाई), 26 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार नगेन्द्र एन रॉय (सं. 14246485एम अब जेसी-374967डब्ल्यू), 10 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार कुंजुमन ई एम (सं. 14237557के अब जेसी-374969एफ), 12 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14237586वाई अब जेसी-374970डब्ल्यू), 31 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार विजय कुमार सिंह (सं. 14230828एन अब जेसी-374978एच), 01 मार्च 2003।

हवलदार धनी राम (सं. 14271064पी अब जेसी-374979एल), 01 मार्च 2003।

हवलदार बिजय पाल (सं. 14246426ए अब जेसी-374835एच), 01 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार पी जया कुमार (सं. 14233591ए अब जेसी-374981एच), 22 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 14298354डब्ल्यू अब जेसी-374982एल), 01 मार्च 2003।

हवलदार एम एस नायर टी के (सं. 14244311एन अब जेसी-374983एन), 01 मार्च 2003।

हवलदार कृपाल सिंह (सं. 14247496एल अब जेसी-374984डब्ल्यू), 01 मार्च 2003।

हवलदार बलबीर सिंह (सं. 14241004एल अब जेसी-374986एफ), 01 मार्च 2003।

हवलदार विजय सिंह राना (सं. 14242919के अब जेसी-374987के), 03 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार सधीसन पी ए (सं. 14247395एक्स अब जेसी-374988एम), 01 मार्च 2003।

हवलदार एन बी रैड्डी (सं. 14246166ए अब जेसी-374989पी), 01 मार्च 2003।

हवलदार बाबू अरवली (सं. 14246206डब्ल्यू अब जेसी-374990के), 01 मार्च 2003।

हवलदार बलवंत राय (सं. 14246663के अब जेसी-374991एम), 01 मार्च 2003।

हवलदार अक्षय कुमार साहू (सं. 14245900डब्ल्यू अब जेसी-374992पी), 01 मार्च 2003।

हवलदार किरवे महादेव पिल्ला (सं. 14247451एल अब जेसी-374993एक्स), 01 मार्च 2003।

हवलदार दाताराम कुमार पाल दरबार (सं. 14296653डब्ल्यू अब जेसी-374955एफ), 12 मार्च 2003।

हवलदार भारमेश्वर यादव (सं. 14229977पी अब जेसी-374971वाई), 07 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मार्च 2003 से दी जायेगी)

हवलदार अवध नरेश (सं. 14243973के अब जेसी-374994ए), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार देवनाथ चौबे (सं. 14244884एक्स अब जेसी-374995एच), 04 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 14247213वाई अब जेसी-374996एल), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार महावीर सिंह (सं. 14245554एल अब जेसी-375039एम), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार बासनानागौड़ा गोदरा (सं. 14246198एच अब जेसी-375040एफ), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार अभय महू (सं. 14247504वाई अब जेसी-375041के), 09 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार राम निवास (सं. 14246311एम अब जेसी-375042एम), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार विजय कुमार नायर (सं. 14244093ए अब जेसी-375044एक्स), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार लखन सिंह (सं. 14243598के अब जेसी-375045ए), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार हरि कुमार जी (सं. 14231294ए अब जेसी-375046एच), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14245848वाई अब जेसी-375047एल), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार के अर्जुन पांडुरंग (सं. 14246154एल अब जेसी-375048एन), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार जाँय गोविन्दा मलिक (सं. 14235765ए अब जेसी-375049डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार सतबीर (सं. 14247095डब्ल्यू अब जेसी-375050एल), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 14243640एक्स अब जेसी-375051एन), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार श्रवण कुमार (सं. 14247767एक्स अब जेसी-375052डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 14229238एच अब जेसी-375053वाई), 01 अप्रैल 2003

हवलदार जुगल किशोर जेना (सं. 14247449एन अब जेसी-375054एफ), 09 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2003 से दी जायेगी)

हवलदार पी राजन इडाचिरा (सं. 14244132एन अब जेसी-375055के), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 14241730के अब जेसी-375056एम), 01 मई 2003।

हवलदार महावीर सिंह (सं. 14247326एफ अब जेसी-375057पी), 01 मई 2003।

हवलदार गुरविन्दर सिंह (सं. 15369083एम अब जेसी-375064एल), 01 मई 2003।

हवलदार रमेश कुमार (सं. 14246971के अब जेसी-375065एन), 07 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाएगी)

हवलदार बजरंग लाल (सं. 14227898एफ अब जेसी-375067वाई), 01 मई 2003।

हवलदार देवादासन नायर पी (सं. 14227167एन अब जेसी-375068एफ), 01 मई 2003।

हवलदार व्ही रघुनाथ दुबाल (सं. 14227745एक्स अब जेसी-375069के), 01 मई 2003।

हवलदार एस रंगा नायकुलु (सं. 14297969पी अब जेसी-375070वाई), 01 मई 2003।

हवलदार राम औतार (सं. 14241134एन अब जेसी-375072के), 01 मई 2003।

हवलदार सत्यवीर सिंह (सं. 14237568डब्ल्यू अब जेसी-375073एम), 01 मई 2003।

हवलदार रमेश चन्दर (सं. 14297789एम अब जेसी-375074पी), 01 मई 2003।

हवलदार येसुदासन ए (सं. 14298677वाई अब जेसी-375075एक्स), 01 मई 2003।

हवलदार एस एस प्रसाद सिंह (सं. 14236362एम अब जेसी-375096एन), 13 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाएगी)

हवलदार रमेश सिंह (सं. 14246730एक्स अब जेसी-375098वाई), 14 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाएगी)

हवलदार रमबीर सिंह (सं. 14233816पी अब जेसी-375100एल), 14 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाएगी)

हवलदार आर के सिंह (सं. 14245889एच अब जेसी-375101एन), 01 मई 2003।

हवलदार बलवन सिंह (सं. 14243575डब्ल्यू अब जेसी-375102डब्ल्यू), 07 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाएगी)

हवलदार पी के मोहन्ती (सं. 14246637एच अब जेसी-375104एफ), 06 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाएगी)

हवलदार पी पी एस एस एम राव (सं. 14240499डब्ल्यू अब जेसी-375105के), 17 मई 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार एस अहमदुल्ला (सं. 14268122एच अब जेसी-374997एन), 19 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार तकामोगे शंकर ए (सं. 15350643वाई अब जेसी-374998डब्ल्यू), 08 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार महेश कुमार (सं. 14259477एम अब जेसी-375000ए), 27 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार देव चरन (सं. 15363238ए अब जेसी-375003एन), 13 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार घोरपड़े अरुण बी सी (सं. 15378144एन अब जेसी-375008एम), 23 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 15365402डब्ल्यू अब जेसी-375010के), 01 फरवरी 2003।

हवलदार पलानी सामी एम (सं. 15378491वाई अब जेसी-375011एम), 11 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार अनंदा कुमार बी (सं. 15373189डब्ल्यू अब जेसी-375012पी), 09 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार बिचित्रानंद साहू (सं. 15369632एफ अब जेसी-375013एक्स), 01 फरवरी 2003।

हवलदार दुलाल चन्द्र मंडल (सं. 15369673एल अब जेसी-375017एन), 09 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार मोहम्मद शेरिफ एच (सं. 15366080एन अब जेसी-375019वाई), 29 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार महेन्द्रनाथ चौहान (सं. 15369705एच अब जेसी-375020एन), 01 फरवरी 2003।

हवलदार ए सेल्वम (सं. 15363070वाई अब जेसी-375021डब्ल्यू), 23 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार बी एस बोहरा (सं. 15369412एक्स अब जेसी-375024के), 01 फरवरी 2003।

हवलदार अमर सिंह (सं. 15362536के अब जेसी-375025एम), 01 फरवरी 2003।

हवलदार नरसिम्बा प्रभु एस (सं. 15372961एच अब जेसी-375026पी), 31 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार एम के अनिल (सं. 15373245के अब जेसी-375027एक्स), 24 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

हवलदार राम बिलास यादव (सं. 15368535एक्स अब जेसी-375028ए), 01 फरवरी 2003।

हवलदार मेसूरा मुर्ति (सं. 15370304ए अब जेसी-375029ए), 28 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

हवलदार नरेश दत्त (सं. 14239856एफ अब जेसी-375058एक्स), 01 मई 2003।

हवलदार पार्थ सारथी के (सं. 14242596एम अब जेसी-375080एच), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

हवलदार प्रभु दयाल (सं. 14250318एन अब जेसी-374953डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार राम निवास (सं. 14247476एक्स अब जेसी-374952एच), 01 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार राज पाल (सं. 14250381एच अब जेसी-374973के), 01 फरवरी 2003।

हवलदार बृज किशोर साहू (सं. 14252018एल अब जेसी-374974एम), 01 मार्च 2003।

हवलदार जयपाल सिंह रावत (सं. 14242221एन अब जेसी-375034एन), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार जय भगवान (सं. 14252109पी अब जेसी-374059ए), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार व्ही अन्जप्पा (सं. 14252461वाई अब जेसी-375061एक्स), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार एच के बेहरा (सं. 14249425एच अब जेसी-375037एच), 01 अप्रैल 2003।

हवलदार विजया कुमार पी के (सं. 14249733एच अब जेसी-375091पी), 01 मई 2003।

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार राम लाल (सं. 14239483वाई अब जेसी-374977ए), 21 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार भगवान सिंह (सं. 14227841एम अब जेसी-374870एल), 26 सितम्बर 2002।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2002 से दी जायेगी)

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 14240014एच अब जेसी-374534वाई), 01 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2002 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश चन्द (सं. 14299931के अब जेसी-374630एन), 17 मई 2002।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार कमलेश प्रसाद सिंघा (सं. 14227648ए अब जेसी-374854एन), 01 अक्टूबर 2002।

हवलदार नरिन्दर सिंह (सं. 14224328ए अब जेसी-374856वाई), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार अमनजीत सिंह (सं. 14224292एम अब जेसी-374858के), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार अजीत कुमार सरकार (सं. 14298062एम अब जेसी-374861के), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार बी एन राय (सं. 14228053पी अब जेसी-374863पी), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार असित कुमार साधन (सं. 14228185एच अब जेसी-374865ए), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार एस ए के सिंघा (सं. 14298589एच अब जेसी-374867एल), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार मीर सिंह लाम्बा (सं. 14270799एम अब जेसी-374869डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार ए के सिंह (सं. 14270004एच अब जेसी-374874एफ), 02 दिसम्बर 2002।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार बलराज सिंह (सं. 14298635एम अब जेसी-374875के), 12 दिसम्बर 2002।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार रामजी सिंह (सं. 14227997के अब जेसी-374876एम), 08 दिसम्बर 2002।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार एस के सामन्त (सं. 14227271एफ अब जेसी-374877पी), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार जगद सिंह (सं. 14246448वाई अब जेसी-374878एक्स), 10 दिसम्बर 2002।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार सुदर्शन (सं. 14247212डब्ल्यू अब जेसी-374879ए), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार टी पी सिंह (सं. 14230017एच अब जेसी-374880पी), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार हुकम सिंह (सं. 14270262एन अब जेसी-374881एक्स), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार राम सुभाषा (सं. 14230101एच अब जेसी-374882ए), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार राजेश्वर सिंह (सं. 14270489एफ अब जेसी-374883एच), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार लाल चन्द यादव (सं. 14270610के अब जेसी-374884एल), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार विष्णु दत्त (सं. 14270791ए अब जेसी-374885एम), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार तेजिजी रंगछौर (सं. 14270969एल अब जेसी-374886डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार रफीक अहमद (सं. 14224265एच अब जेसी-374937वाई), 01 जनवरी 2003।

हवलदार ए के झा (सं. 14236883ए अब जेसी-374938एफ), 01 जनवरी 2003।

हवलदार एल पी सिंह (सं. 14234881डब्ल्यू अब जेसी-374940वाई), 01 जनवरी 2003।

हवलदार एस बी बी रे (सं. 14227381डब्ल्यू अब जेसी-374941एफ), 01 जनवरी 2003।

हवलदार जयप्रकाश सिंह (सं. 14297825एम अब जेसी-374942के), 01 जनवरी 2003।



हवलदार शाम लाल (सं. 14271056डब्ल्यू अब जेसी-374943एम),  
01 जनवरी 2003।

हवलदार रमेश चन्दर (सं. 14234354पी अब जेसी-374944पी), 01  
जनवरी 2003।

हवलदार स्वप्न कुमार घोष (सं. 14235775के अब जेसी-374946ए),  
01 जनवरी 2003।

हवलदार राजन पिल्लई सी एस (सं. 14241541डब्ल्यू अब  
जेसी-374947एच), 13 जनवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार जी ए हफी (सं. 14247053के अब जेसी-374949एन), 01  
जनवरी 2003।

हवलदार रंगासामी एल (सं. 15371061एम अब जेसी-374959एक्स),  
01 फरवरी 2003।

हवलदार नसीब सिंह (सं. 14242588एन अब जेसी-374962एक्स),  
01 फरवरी 2003।

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 14270928एफ अब जेसी-374964एच),  
01 फरवरी 2003।

हवलदार नरोत्तम सिंह (सं. 14246265एच अब जेसी-374965एल),  
19 मार्च 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

सेना सेवा कोर (पूर्ति)

[सूबेदार मेजर (निजी सहायक) के रैंक में]

सूबेदार गंगा धरन खजाना (जेसी-209017वाई), 01 सितम्बर 2002।

सूबेदार महेश कुमार सुब्बा (जेसी-217291एल), 01 नवम्बर 2002।

सूबेदार सन्तनू डे (जेसी-209020वाई), 01 जनवरी 2003।

सूबेदार सन्जीव कुमार अगस्ती (जेसी-224693एल), 06 मार्च 2003।

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता  
01 मार्च 2003 से दी जाएगी)

[सूबेदार (निजी सहायक) के रैंक में]

नायब सूबेदार साधू सिंह (जेसी-641639एफ), 01 जून 2002।

नायब सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-641640डब्ल्यू), 04 अगस्त 2002।

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01  
जुलाई 2002 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार शशीधरन पिल्लने के (जेसी-641641वाई), 01 अगस्त  
2002।

2—GI/2003

नायब सूबेदार पुरुषोत्तम लाल शर्मा (जेसी-641996के), 01 सितम्बर  
2002।

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-641642एफ), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार उज्जल सिंह (जेसी-641646एक्स), 01 सितम्बर 2002।

नायब सूबेदार टी पच्चानाधम (जेसी-641648एच), 01 सितम्बर  
2002।

नायब सूबेदार राजमणी प्रसाद (जेसी-641649एल), 01 नवम्बर  
2002।

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-641650ए), 01 दिसम्बर 2002।

नायब सूबेदार हरी दास मुखर्जी (जेसी-641651एच), 01 दिसम्बर  
2002।

नायब सूबेदार आर के सजयामासिंगा (जेसी-641822के), 01 जनवरी  
2003।

नायब सूबेदार रतन लाल कैन (जेसी-641823एम), 01 जनवरी  
2003।

नायब सूबेदार बालाकृष्णन वी आर (जेसी-641824पी), 01 फरवरी  
2003।

नायब सूबेदार अनियाकुन्जु सी डी (जेसी-641825एक्स),  
01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-641827एच), 01 फरवरी 2003।

नायब सूबेदार आर शकुनी (जेसी-641997एम), 01 मार्च 2003।

[सूबेदार (निजी सहायक) के रैंक में]

नायब सूबेदार अर्धंगले कचरुट्टीम्बक राव (जेसी-641998पी), 01  
मार्च 2003।

नायब सूबेदार राम किशोर सुयाल (जेसी-641999एक्स),  
01 अप्रैल 2003।

नायब सूबेदार सोमाराजन वी के (जेसी-642001एफ), 01 अप्रैल  
2003।

नायब सूबेदार कुन्जा विहारी परोदा (जेसी-642002के), 01 अप्रैल  
2003।

[नायब सूबेदार (निजी सहायक) के रैंक में]

हवलदार भास्करण ए टी (सं. 14472689ए अब जेसी-642768एन),  
08 अगस्त 2002।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता  
01 मई 2000 से दी जाएगी)

हवलदार वालासुवरामनियम आर (सं. 6375595एन अब  
जेसी-642799एन), 01 अप्रैल 2002।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता  
01 मार्च 2001 से दी जाएगी)

हवलदार बेनुगोपालन की पी (सं. 13869344एल अच जेसी-642803एल), 21 जनवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाएगी)

हवलदार तिलक राज (सं. 6650106एल अच जेसी-642812एल), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार निधर कुरैसी (सं. 6375624एल अच जेसी-642813पी), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार राकेश कुमार सागर (सं. 6376142पी अच जेसी-642814एल), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार रमेश सिंह (सं. 6376190पी अच जेसी-642872एल), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार नन्द कुमार सिंह (सं. 6376311एल अच जेसी-642815ए), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार राधा कृष्णन एस पी (सं. 14229956वाई अच जेसी-642816एल), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार लुकोस वी वी (सं. 14475725एल अच जेसी-642856के), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार अशोक कुमार सिरोही (सं. 4174798पी अच जेसी-642817एल), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार दलीप कुमार सिंह (सं. 6376354ए अच जेसी-642804एल), 01 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जाएगी)

हवलदार वचित्र सिंह (सं. 14336637के अच जेसी-642818एल), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार एच सी नरहय (सं. 14339109एल अच जेसी-642819डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार जोसफ पी सी (सं. 6376416पी अच जेसी-642846ए), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार ऊन्नी कृष्णन श्रीनील (सं. 14476846वाई अच जेसी-642820एल), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 14547481एल अच जेसी-642821एल), 01 नवम्बर 2002।

हवलदार एन सी अम्बड (सं. 4462558के अच जेसी-642857एल), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार अमृत लाल (सं. 6377179एल अच जेसी-642858एल), 01 दिसम्बर 2002।

हवलदार सुमित्र सिंह (सं. 6376448एल अच जेसी-642823वाई), 01 जनवरी 2003।

हवलदार हयात सिंह (सं. 4173278एल अच जेसी-642824एल), 15 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (निजी सामान्य ड्यूटी/स्थाक ड्यूटी)

हवलदार सबाध कुमार त्रिपाठी (सं. 6467357एल अच जेसी-642798एल), 19 दिसम्बर 2002।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जाएगी।)

हवलदार हरी गोपाल (सं. 6377137डब्ल्यू अच जेसी-642633एल), 01 जुलाई 2001।\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 1999 से दी जाएगी।)

हवलदार राम गीरी गौस्वामी (सं. 6381785डब्ल्यू अच जेसी-642695एल), 24 दिसम्बर 2001।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 1999 से दी जाएगी।)

हवलदार प्रशान्त कुमार दास (सं. 6381812पी अच जेसी-642634पी), 01 सितम्बर 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2000 से दी जाएगी।)

हवलदार अजय कुमार राय (सं. 6381853वाई अच जेसी-642696पी), 10 नवम्बर 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2000 से दी जाएगी।)

हवलदार अजय कुमार दास (सं. 6381854एल अच जेसी-642635एल), 05 सितम्बर 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2000 से दी जाएगी।)

हवलदार शिवराजम के वी (सं. 6381897डब्ल्यू अच जेसी-642698एल), 01 जून 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2001 से दी जाएगी।)

हवलदार राम निवास अग्निहोत्री (सं. 6382123ए अच जेसी-642697एल), 20 अक्टूबर 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2000 से दी जाएगी।)

हवलदार एम के राज (सं. 6650054ए अच जेसी-642770एल), 01 जनवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जाएगी।)

हवलदार भूमिबामुरथी आर (सं. 6373577एम अब जेसी-642484 के), 01 अक्टूबर 2000।

हवलदार मी. ईश्वर खान (सं. 13870762एम अब जेसी-642485एम), 01 अक्टूबर 2000।

हवलदार सतविन्दर सिंह (सं. 6650083पी अब जेसी-642486पी), 01 अक्टूबर 2000।

हवलदार हीरा चन्द (सं. 6650082एम अब जेसी-642515वाई), 01 नवम्बर 2000।

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद (सं. 6649667एम अब जेसी-642825के), 20 फरवरी 2003।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार (सामान्य इयूटी/स्टाफ इयूटी)

हवलदार इन्द्रजित प्रसाद (सं. 6650084एक्स अब जेसी-642516एफ), 01 नवम्बर 2000।

हवलदार राम निवास (सं. 6650086एच अब जेसी-642517के), 16 अप्रैल 2001। X

हवलदार हरी राम यादव (सं. 6650088एन अब जेसी-642518एम), 16 अप्रैल 2001। X

X(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी।)

हवलदार बी पी तिवारी (सं. 6468034एल अब जेसी-642636ए), 10 जुलाई 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 31 मार्च 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार गोपाला कृष्णापी दी (सं. 13875939वाई अब जेसी-642519पी), 09 फरवरी 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरियावन्शी पंडितहारिवा (सं. 6650091एन अब जेसी-642520के), 01 दिसम्बर 2000।

हवलदार सुखमन राय (सं. 6650092डब्ल्यू अब जेसी-642521एम), 16 अप्रैल 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जायेगी।)

हवलदार मनोगोविन्दा रास (सं. 6650093वाई अब जेसी-642522पी), 16 अप्रैल 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार राज किशोर पटनायक (सं. 6650094एफ अब जेसी-642523एक्स), 01 जनवरी 2001।

हवलदार हेमन्ता कुमार दास (सं. 6650097पी अब जेसी-642524ए), 01 जनवरी 2001।

हवलदार प्रवाकर मोहन्ता (सं. 6650099ए अब जेसी-642525एच), 03 मार्च 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार एस के सुबुधी (सं. 6650100के अब जेसी-642526एल), 01 फरवरी 2001।

हवलदार सन्तोष कुमार (सं. 6650105एच अब जेसी-642527एन), 01 फरवरी 2001।

हवलदार सुरली प्रसाद (सं. 6650107एन अब जेसी-642528डब्ल्यू), 01 फरवरी 2001।

हवलदार सुगाधन के (सं. 6650110एन अब जेसी-642529वाई), 12 फरवरी 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार पदम सिंह (सं. 6650112वाई अब जेसी-642530एन), 09 फरवरी 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार पी सी सुब्बा राव (सं. 13874375पी अब जेसी-642531डब्ल्यू), 06 फरवरी 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार नारायण राव (सं. 13875301एम अब जेसी-642532वाई), 28 मार्च 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार राम विलास (सं. 6469712एम अब जेसी-642533एफ), 01 फरवरी 2001।

हवलदार विष्णु कुमार (सं. 13870765ए अब जेसी-642534के), 01 फरवरी 2001।

हवलदार अनिल कुमार दास (सं. 6650108डब्ल्यू अब जेसी-642535एम), 01 फरवरी 2001।

हवलदार सुखवीर सिंह (सं. 6650125डब्ल्यू अब जेसी-642536पी), 01 मार्च 2001।

हवलदार एम डी नूरुलईशलाम (सं. 6650134एक्स अब जेसी-642758के), 27 फरवरी 2002।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार गंगा प्रसाद यादव (सं. 6650135ए अब जेसी-642537एक्स), 16 अप्रैल 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार शक्ति पादा बनर्जी (सं. 6650136एच अब जेसी-642538ए), 08 मार्च 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2001 से दी जायेगी।)

हवलदार उमेश सिंह (सं. 6650147पी अब जेसी-642539एच), 01 मार्च 2001।

हवलदार सुकुमारन पी (सं. 6375248पी अब जेसी-642540एक्स), 02 मार्च 2001।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2001 से दी जायेगी।)

#### सेना डाक सेवा कोर

वार. आफिसर से नायब सूबेदार/लिपिक (डाक)

सत्यनारायणा पारिख (सं. 8372618एल अब जेसी-834421डब्ल्यू), 28 जनवरी 2003।

प्रवीन सिंह (सं. 8373778वाई अब जेसी-834423एफ), 28 दिसम्बर 2002।

मनोज कुमार पाण्डे (सं. 8371177एच अब जेसी-834424के), 21 अप्रैल 2003।

चन्द्रा भान नामदेव (सं. 8371261एन अब जेसी-834427एम), 17 मार्च 2003।

उमा शंकर वर्मा (सं. 8371458के अब जेसी-834426पी), 08 अप्रैल 2003।

रतन सिंह राजपूत (सं. 8371847के अब जेसी-834427एक्स), 06 मार्च 2003।

लक्खी चन्द साहू (सं. 8372333वाई अब जेसी-834428ए), 17 अप्रैल 2003।

दुर्गा दास (सं. 8372425एल अब जेसी-834429एच), 20 मार्च 2003।

विजय कुमार (सं. 8371532ए अब जेसी-834430एक्स), 05 मई 2003।

जितेन्द्र कुमार ठाकुर (सं. 8373562डब्ल्यू अब जेसी-834431ए), 12 मार्च 2003।

पी बेर्ती कुमार (सं. 8373578एफ अब जेसी-834432एच), 30 मार्च 2003।

कृष्णाराजा बिट्टल (सं. 8373591एल अब जेसी-834433एल), 20 अप्रैल 2003।

मनिष कुमार सक्सेना (सं. 8373593डब्ल्यू अब जेसी-834434एन), 21 मार्च 2003।

अशोक कुमार (सं. 8373859एक्स अब जेसी-834435डब्ल्यू), 13 मार्च 2003।

रवी मने (सं. 8373875पी अब जेसी-834436एक्स), 16 अप्रैल 2003।

उदय पाल सिंह सेंगर (सं. 8373924एम अब जेसी-834437एफ), 24 मार्च 2003।

बसवंत पंवार (सं. 8374011एक्स अब जेसी-834438के), 12 मार्च 2003।

अशोक हजेरी (सं. 8373017एम अब जेसी-834439एम), 28 अप्रैल 2003।

(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता वरीयता क्रमांक 01 को 26 जुलाई 2002 से, वरीयता क्रमांक 02 को 01 दिसम्बर 2002 से, क्रमांक 03 से 17 को 14 दिसम्बर 2002 से और क्रमांक 18 को 13 फरवरी 2003 से दी जाती है)

आर. चतुर्वेदी  
अपर सचिव

सं. 504, दिनांक 01 अगस्त, 03--थल सेना अनुदेश 15/79 तथा इसमें जारी संशोधन सेना अनुदेश 5/96 के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

#### नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन से अर्ध स्थाई मेजर के पद में

डी एस-11973 डब्ल्यू, मौनिका खन्ना, 25 अक्तूबर 2002।

डी एस-11977 एम, निधि मल्हान, 11 फरवरी 2003।

डी एस-11996 एक्स, अरुणिमा विस्वास, 15 मार्च 2003।

डी एस-11984 एच, नीरू कनवर, 28 मार्च 2003।

जे. एल. शर्मा  
ले. जनरल, डी जी डी एस

सं. 505, दिनांक 05 अगस्त, 03--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

#### नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर के पद पर

उत्तरा आयर (एम आर-07589-एक्स), ए एम सी-01 जनवरी 2002।

विजय कुमार (एम आर-07837-एच) (एम एस-13250-ए),  
ए एम सी-11 मई 2001।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 01-12-2001 में प्रकाशित, रक्षा  
मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द  
किया जाता है।)

आशीष बहल (एम आर-07083-वाई), ए एम सी-20 जनवरी 2003।

प्रान्ती स्वैन (एम आर-07095-एन), ए एम सी-20 जनवरी 2003।

अनिनदिता चैटर्जी (एम आर-07107-एक्स), ए एम सी-20 जनवरी  
2003।

समीर कुमार (एम आर-07020-डब्ल्यू), ए एम सी-30 जून 2002।

राजेश उद्दनदम (एम आर-07116-वाई), ए एम सी-20 जनवरी  
2003।

अमनप्रीत (एम आर-07114-एन), ए एम सी-20 जनवरी 2003।

संजय कुमार दन्त (एम आर-07110-एक्स), ए एम सी-20 जनवरी  
2003।

गणेश मुर्ती रामा मुर्ती विशिष्ट (एम आर-07832-के), ए एम सी-04  
फरवरी 2003।

तिलक बहादुर खत्री (एम एस-13839-के) एम आर-07914-एम),  
ए एम सी-23 दिसम्बर 2001।

शैलेन्द्र कुमार चौधरी (एम एस-13640-एच) (एम  
आर-07785-एक्स), ए एम सी-02 फरवरी 2003।

मोहन भिकाजी महाले (एम एस-13374-पी) (एम आर-07836-ए)  
ए एम सी-03 फरवरी 2003।

मेजर से ले. कर्नल के पद पर

आर सेतलुर (एम आर-05626 एफ), ए एम सी-01 जून 2001।

वी आर सिन्हा (एम आर-05909 एच), ए एम सी-01 दिसम्बर  
2002।

आर एम जोशी (एम आर-05930 एल), ए एम सी-01 दिसम्बर  
2002।

आर एस रावल (एम आर-05937 पी), ए एम सी-01 दिसम्बर 2002।

(श्रीमती) अरूणा मेनन (एम आर-06502 वाई), ए एम सी-24 मार्च  
2003।

(श्रीमती) अनु लाल (एम आर-07144-एम), ए एम सी-09 मार्च  
2003।

कप्तान के पद पर

शीतल रेना (एम आर-07700-डब्ल्यू), ए एम सी-04 मार्च 2003।

रवि पतचारू (एम आर-07751-के), ए एम सी-04 मार्च 2003।

निशान्त पाठक (एम आर-07755-ए), ए एम सी-04 मार्च 2003।

विशान देव सिंह जमवाल (एम आर-07731-डब्ल्यू), ए एम सी-04  
मार्च 2003।

जफर हुसैन (एम आर-07733-एफ), ए एम सी-04 मार्च 2003।

सौरभ भुटानी (एम आर-07748-के), ए एम सी-04 मार्च 2003।

ओमेश नाथ (एम आर-07752-एम), ए एम सी-04 मार्च 2003।

गोविन्द जी ठाकुर (एम आर-07689-एम), ए एम सी-04 मार्च  
2003।

अलोक कुमार (एम आर-07701-वाई), ए एम सी-04 मार्च 2003।

राहुल सिन्हा (एम आर-07705-पी), ए एम सी-04 मार्च 2003।

संजीव खेरा (एम आर-07712-एल), ए एम सी-04 मार्च 2003।

शिव शंकर शर्मा (एम आर-07728-डब्ल्यू) ए एम सी-04 मार्च  
2003।

आदित्या अभिवेक ज्ञा (एम आर-07744-एन) ए एम सी-04 मार्च  
2003।

सर्जन लेफ्टिनेंट कमान्डर से सर्जन कमान्डर

मनील पटेल (एम एस-13418-एफ) (एम आर-07819-ए)  
(75659), ए एम सी-06 फरवरी 2003।

आर पानीकर (एम आर-05904-के) (75450), ए एम सी-01  
दिसम्बर 2002।

आर पंत (एम आर-05932-डब्ल्यू) (75453) ए एम सी-01 दिसम्बर  
2002।

एस मुरली कृष्णन (एम आर-06176-एफ) (75477), ए एम सी-09  
मार्च 2003।

के अधिकारी (एम आर-06477 एम) (75479), ए एम सी-16  
मार्च 2003।

वी वी प्रभाकर (एम आर-07146-डब्ल्यू) (75480), ए एम सी-09  
अप्रैल 2003।

सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमान्डर के पद पर

अमित सेठी (एम आर-07790-एच) (75680), ए एम सी-02 मार्च  
2003।

सर्जन लेफ्टिनेन्ट कमान्डर के पद पर

कमल मिश्रा (एम आर-07816-एम) (एम एस-13487-एक्स)  
(75663), ए एम सी-05 जनवरी, 2003।

कप्तान के पद पर

अविनाश सिंह परिहार (एम आर-07666-एफ) (75768), ए एम सी-  
01 दिसम्बर 2002।

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमान्डर के पद पर

एम शर्मा (एम आर-05984-एम) (19983) ए एम सी-01 दिसम्बर  
2002।

ए के हांडा (एम आर-05986=एक्स) (19985) ए एम सी-01 दिसम्बर 2002।

(कृ.) एस मोहल्लाह (एम आर-05995=वाई) (20107) ए एम सी-28 दिसम्बर 2002।

एम श्रीवास्तवा  
चित्रोडियर, उप डीजीएएफएमएस (पी)

सं. 506, दिनांक 06 अगस्त, 03--राष्ट्रपति नियमित लिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेवा

स्थाई कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी-51546=पी कन्दासामी, आर्टी -19 दिसम्बर 2002।

एस एल नं. नाम और आर्म

3956 छाडगे बी पी, एस एल टी ओ टी

3957 बी एस पाबला, एस एल टी ओ टी

3959 पी. एस मटराजन, एस एल एस ए

3960 मोहम्मद अली सी एम, एस एल ए आर सी एच

3961 किरपाल सिंह, एस एल ए पी टी सी

3962 सविन्द्र सिंह, एस, एल टी ओ टी

3964 आर जैचन्द्रन, एस एल, एस ए

3965 एन एस सामविथल, एस एल आर ओ

3966 आर एन यादव, एस, एल क्यू एम

3967 जी एस सेनी, एस एल टी ओ टी

3968 सी टी रविन्द्रन, एस एल सी आई पी एच

3969 बी के पंडित, एस एल आर ओ

3971 एस साबन्त, एस, एल बी आर

3972 ए मथाईलंगन, एस एल, ई एम

3973 आर एन डान, एस एल सी आई पी एच

3974 सतपाल सिंह, एस एल, ए पी टी सी

3975 बलदेव सिंह, एस एल आर ओ

3976 हरि सिंह, एस एल आर ओ

3977 एस राय, एस एल सी आई पी एच

3978 एच शंकरादास, एस, एल आर ओ

3979 एस एस पानीग्राही, एस एल ई आर

3980 मुरौराम एस, एस एल, सी आई पी एच

3982 ब्रह्म पाल सिंह, एस एल सी आई पी एच

3983 ए एस श्रीराम, एस एल, सी आई पी एच

3984 एच कडकड, एस एल बी/आर

3985 गजन सिंह, एस एल, आर ओ

3986 आर एन यादव, एस एल ए ई

3987 जसबीर सिंह, एस एल, आर ओ

3988 टी आर आर्य, एस एल बी एस ओ

3989 जसविन्द सिंह, एस एल आर ओ

3990 वस पाल सिंह, एस एल आर ओ

3991 आर एस परमार, एस एल आर ओ

3992 बी एन शर्मा, एस एल क्यू एम

3993 आर के श्रीनि, एस एल क्यू एम

3994 ए ए आर राव, एस एल आर ओ

3995 जय राजन बी, एस एल, टी ई ओ

3996 आर पी शर्मा, एस एल, ई आर

3999 गुरमेल सिंह, एस एल, ई/एम

4000 एस पी ज्योतरा, एस एल, आर ओ

4001 आर डी वैनिचा, एस एल टी ई ओ

4002 के चन्द्र, एस एल, क्यू एम

4004 दलीप सिंह, एस, एल, ई/एम

4005 अशोक कुमार, एस एल, ई आर

4006 बलवन्त सिंह, एस एल क्यू एम

4007 लक्ष्मी नारायण, एस एल, क्यू एम

--13 मई 2003

आई सी नं. नाम और आर्म

आई. सी. 43017 एस एस दलाल, इन्फ.

आई. सी. 44760 गिरिस कांडपाल, ईएमई

आई. सी. 45559 निर्मल सिंह, इंजी.

आई. सी. 46418 एस. पी. राव, ईएमई

आई. सी. 46666 राजेश कुमार, सिग.

आई. सी. 46707 एच कुमार, ईएमई

आई. सी. 46729 एच एस औलख, इन्फ.

आई. सी. 46810 डी. डेज, आर्टि.

आई.सी. नं. नाम और आम

आई. सी. 46877 जेड एम अमर, आदि.

आई. सी. 48185 ओ. पी. गधवाल, इन्क.

आई. सी. 48408 एस बहादुर कोसी, इन्क.

आई. सी. 48869 एस पी सिंह, ईएमई

आई. सी. 49269 नरेन्द्र सिंह, इएमई

आई. सी. 50136 निकेत सुडा, इंजी.

आई. सी. 50185 नीरज मेहता, ईएमई

आई. सी. 50411 बी एस राठौर, ए डी आर्दि.

आई. सी. 50429 नरेश कुमार आर्दि.

आई. सी. 50601 एम गवकार, ए.सी.

आई. सी. 50612 आर एस शोखावत, इन्क.

आई. सी. 50639 पी. ए. अहलावत, ए.ओ.सी.

आई. सी. 50641 एस बुधवार, सिग.

आई. सी. 50824 आर. के. शर्मा, ईएमई

आई. सी. 50889 आर रोहित, आर्दि.

आई. सी. 50932 ए. देवगन, इन्क.

आई. सी. 50966 आर. सी. शुक्ला, सिग.

आई. सी. 50986 एस. कुमार, इंजी.

आई. सी. 51028 तेजपाल सिंह, सिग.

आई. सी. 51032 एस. शर्मा, ईएमई

आई. सी. 51043 एच वरधान, इन्क.

आई. सी. 51046 रविन्द्र सिंह, इन्क.

आई.सी. 51051 समकरण, ए.सी.

आई.सी. 51070 आर के श्रीवास्तव, ए. ओ. सी.

आई.सी. 51078 ए. जेकर, इन्क.

आई.सी. 51919 ए. के. सिंह, ई. एम. ई.

आई.सी. 52276 आर. एस. भसीन, इन्क.

आई.सी. 52300 एस.बी. चेही, ई.एम.ई.

आई.सी. 52311 एस.के. उमियाल, सिग

आई.सी. 52333 आर. सी. शर्मा, इन्क.

आई.सी. 52689 बी.डी. के. राहु, ई.एम.ई.

==16 दिसम्बर 2001

आई.सी. 46926 विरेन्द्र सिंह, इन्क.

आई.सी. 46930 एम. अमेन, इन्क.

आई.सी. 46937 पी.ए. म्हुहन, इन्क.

आई.सी. 46951 सन्दीप सिंह, ए.एस.सी.

आई.सी. 46965 डी. चरणीस, इन्क.

==22 अप्रैल 2002

आई.सी. 49757 यु.पी. उलागनाथन, इन्क.==16 दिसम्बर 2001  
(लेकिन वे और अलाउन्स 16 दिस. 2002 से लागू)

आई.सी. 51133 बी. जवाधराव, इन्क.

आई.सी. 51194 आर.पी. नैव, इन्क.

आई.सी. 51265 बी.के. चन्त, ए.ओ.सी.

आई.सी. 51293 सन्दीप शर्मा, ई.एम.ई.

आई.सी. 51299 सोमनाथ गुप्ता, आर्दि.

आई.सी. 51322 एम. रोशन, इन्क.

आई.सी. 51351 एम.पी. विजयन, इन्क.

आई.सी. 51366 एन.एस. भसीन, इन्क.

आई.सी. 51380 ए.के. चाडक, ई.एम.ई.

आई.सी. 51389 एस.एम. मिश्रा, सिग.

आई.सी. 51392 डी.एस. चरमार, आर्दि.

आई.सी. 51393 एस. घोष, इन्क.

==13 जून 2002

आई.सी. 51474 एस. इशोराम, इन्क.

आई.सी. 51510 सोम राज, ए.ओ.सी.

आई.सी. 51559 पी.एस. वासोनी, इन्क.

आई.सी. 51572 एन. कपूर, सिग.

आई.सी. 51582 आर.के. बाली, इन्क.

आई.सी. 51591 जी. सिंघल, ई.एम.ई.

आई.सी. 51603 पी.एस. धालीवाल, आर्दि.

आई.सी. 51614 कुलवीर सिंह, इन्क.

आई.सी. 51631 एन.एस. महारा, सिग.

आई.सी. 51644 ए. कुमार, ई.एम.ई.

आई.सी. 51656 एस.के. नारायण, आर्दि.

आई.सी. 51667 जी. देवगन, आर्दि.

आई.सी. 51682 बी.आर. चौहान, इन्क.

आई.सी. 51691 के. समरसिंह, सिग.

आई.सी. नं., नाम और आर्म  
 आई.सी. 51702 आनन्द लाल, आर्टि.  
 आई.सी. 51722 एस. कन्डारी, ए.एस. सी.  
 आई.सी. 51780 ए.एस. गौतम, इन्फ.  
 आई.सी. 51734 एम.एम. डामले, सिग.  
 आई.सी. 51752 आर. सियाल, ई.एम.ई.  
 आई.सी. 51765 वी.के.एस. तोमर, सिग.  
 आई.सी. 51770 ए. लुंडरा, ए.सी.  
 आई.सी. 51782 पी. वरीकु, ए.एस.सी.  
 आई.सी. 51783 एस.ए. नायडु, इन्फ.  
 आई.सी. 51790 आर. अरोरा, ई.एम.ई.  
 आई.सी. 51801 सुरेन्द्र सिंह शेखावत, इन्फ.  
 आई.सी. 51804 पी. आर. नारायण, ए.डी. आर्टि.  
 आई.सी. 51809 डी.आर.रे, आर्टि.  
 आई.सी. 51821 ए. कोथियाल, ए.डी.आर्टि.  
 आई.सी. 51832 जी. मिश्रा, ई.एम.ई.  
 आई.सी. 51832 ए. डी. माथुर, सिग.  
 आई.सी. 51856 वी. लुथरा, ए.सी.  
 आई.सी. 51858 बी. एस. बसन्त, इन्जि.  
 आई.सी. 51860 गोविन्दन आर., आर्टि.  
 आई.सी. 51861 आर. शर्मा, सिग.  
 आई.सी. 51871 वी. वी. गोपाल, ई.एम.ई.  
 आई.सी. 51875 एल. एम. शर्मा, इन्जि.  
 आई.सी. 51911 बी. एन. राय, ए.ई.सी.

--19 दिसम्बर 2002

आई.सी. 53072 एस. गोपालकृष्णन, इन्जि.  
 आई.सी. 53081 टी. पी. सिंह, ई.एम.ई.  
 आई.सी. 53087 एच. के. दवे, इन्जि.  
 आई.सी. 53092 मनोज कुमार, ए.वी.ई.एम.ई.  
 आई.सी. 53093 रनदीप सिंह, इन्जि.  
 आई.सी. 53110 पी. गौरोला, इन्जि.  
 आई.सी. 53113 सुरेश एस., ई.एम.ई.

--14 जून 2002

आई.सी. 53463 एन. गौगाई, इसग.  
 आई.सी. 53473 जे. आर. मनीरीकर, ई.एम.ई.  
 आई.सी. 53477 महेश यादव, इन्जि.  
 आई.सी. 53479 जे. कुमार, इन्जि.  
 आई.सी. 53482 एल.सी. डागर, ई.एम.ई.  
 आई.सी. 53488 सुरेश जी आर., सिग.

--20 दिसम्बर 2002

आई.सी. 54612 जे. बाली, इन्फ.  
 आई.सी. 54616 जी. वी. बी. रेड्डी, ई.एम.ई.  
 आई.सी. 54620 ए. बी. साही, ए.सी.  
 आई.सी. 54623 आर. श्रीधरन, इन्जि.  
 आई.सी. 54649 एम. मारवाह, आर्टि.  
 आई.सी. 54667 एस. कुमार, ई.एम.ई.  
 आई.सी. 54673 एम. ढोंडियाल, ए.ओ. सी.  
 आई.सी. 54675 मनोज गौड, इन्जि.  
 आई.सी. 54684 एम. सिंह, इन्जि.  
 आई.सी. 54685 ए. पुरी, इन्फ.  
 आई.सी. 54696 ए. हेनडिक, इन्जि.  
 आई.सी. 54701 एस. वासुदेवन, ए.सी.  
 आई.सी. 54729 एस. तेजपाल, ए.डी.आर्टि.  
 आई.सी. 54768 बी. जोशी, ए.एस.सी.

-- 06 नवम्बर 2002

के. एस. वर्मा  
 स. निदेशक  
 एम. एस.-8सी.

सं. 507, दिनांक 06 अगस्त 03.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में

डी पाल (आईसी-31668), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 जी आर तातेरवाल (आईसी-31675), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 रूप ज्योति सर्मा (आईसी-31694), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 एम कृष्णन (आईसी-31696), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 डी सबसटेन (आईसी-31753), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000



ऐ डी गार्डनर (आईसी-31757), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 ऐ वी बालाक्रिशनन (आईसी-31758), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 एम सिंह (आईसी-31762), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 एस टी मुथुस्वामी (आईसी-31767), इन्ट--01 दिसम्बर 2000  
 वी के सहगल (आईसी-31776), ऐ ओ सी--01 दिसम्बर 2000  
 आर सक्सेना (आईसी-31780), आर्टी--01 दिसम्बर 2000  
 एस एम सिरौही (आईसी-31781), ऐ सी--01 दिसम्बर 2000  
 बी चौधरी (आईसी-31785), आर टी--01 दिसम्बर 2000  
 एच एस आर चन्दे (आईसी-31791), आर टी--01 दिसम्बर 2000  
 ऐ एस रावत (आईसी-31793), ऐ ओ सी--01 दिसम्बर 2000  
 आर डी मेहता (आईसी-31794), इन्ट--01 दिसम्बर 2000  
 पी. विवेकानन्दन (आईसी-31795), ऐ डी आर टी--01 दिसम्बर 2000

2000

के एस कुम्बर (आईसी-31797), इन्ट--01 दिसम्बर 2000  
 के एन नायर (आईसी-31804), मैक इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 एस गुलशन (आईसी-31805), इन्जी.--01 दिसम्बर 2000  
 बी वाई गिद्य (आईसी-31809), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 एम एम मितरा (आईसी-31811), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 एस के सरकार (आईसी-31817), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 आर एस रघु (आईसी-31825), आर टी--01 दिसम्बर 2000  
 जे एस नन्दी (आईसी-31830), ऐ डी आर टी--01 दिसम्बर 2000  
 डी पी मामगैन (आईसी-31838), ऐ सी--01 दिसम्बर 2000  
 एस के सिंह (आईसी-31848), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 एम भल्ला (आईसी-31849), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 ऐ के मेहता (आईसी-31852), मैक इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 एस मिश्रा (आईसी-31854), आर टी--01 दिसम्बर 2000  
 पी सी सेन (आईसी-31864), ई एम ई--01 दिसम्बर 2000  
 एम डी मूर्ती (आईसी-31867), आर टी--01 दिसम्बर 2000  
 आर के गुसाई (आईसी-31868), इन्फैंट्री--01 दिसम्बर 2000  
 बी डी पोटी (आईसी-31879), आर टी--01 दिसम्बर 2000  
 आर मनाली (आईसी-31880), ऐ सी--01 दिसम्बर 2000  
 पी के एच शागन्ना (आईसी-31894), आर टी--01 दिसम्बर 2000  
 ऐ के वर्मा (आईसी-31895), ऐ डी आर टी--01 दिसम्बर 2000  
 राम सिंह (आईसी-31895), ऐ सी--01 दिसम्बर 2000  
 पी के टिक्कू (आईसी-31911), एम एफ--01 दिसम्बर 2000

3- 24 GI/2004

के के टिक्कू (आईसी-35387), इन्जी.--01 दिसम्बर 2000  
 एस कुमार (आईसी-35389), ई एम ई--01 दिसम्बर 2000  
 पी के दत्ता (आईसी-35390), इन्जी.--01 दिसम्बर 2000  
 एम ए प्रसाद (आईसी-35391), ई एम ई--01 दिसम्बर 2000  
 एस बी जेठमलभाई (आईसी-35395), सिगनलस--01 दिसम्बर 2000  
 एम मुकजी (आईसी-35396), ई एम ई--01 दिसम्बर 2000  
 सी बी एल सहल (आईसी-35401), इन्जी.--01 दिसम्बर 2000  
 मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समय मान) द्वारा  
 के आर सुरराज (आईसी-39741) ए आर्टी--13 जून 2001

शशि शंकर सिन्हा  
 उप निदेशक सेना सचिव

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 508, दिनांक 05 अगस्त 03.---राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहर्ष पदोन्नति करते हैं:--

श्री अनूप कुमार चटर्जी, वैज्ञानिक ई को सी.सी.आर. एण्ड डी. (टेक), डी.आर.डी.ओ. हैडक्वार्टर में वैज्ञानिक एफ के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में दिनांक 01 जुलाई 2003 से वेतनमान रु. 16400-450-20000 पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री बी. के. आनन्द, वैज्ञानिक ई को डी.बी.एफ.ए., डी.आर.डी.ओ. हैडक्वार्टर में वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में दिनांक 01 जुलाई 2003 से वेतनमान रु. 16400-450-20000 पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री वी. पी. गोयल, वैज्ञानिक डी, डी.आर.डी.ओ हैडक्वार्टर में वैज्ञानिक ई के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2003 से वेतनमान रु. 14300-400-18300 पर।

श्री डी. के. गुप्ता, वैज्ञानिक डी को सी.सी.ई.आर. एण्ड (नोर्थ) में वैज्ञानिक ई के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में दिनांक 01 जुलाई 2003 से वेतनमान रु. 14300-400-18300 पर।

डा. अनिल कुमार, वैज्ञानिक सी को डी.पी.एण्ड सी., डी.आर.डी.ओ. हैडक्वार्टर में वैज्ञानिक डी के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में दिनांक 01 जुलाई 2003 से वेतनमान रु. 12000-375-16500 पर।

श्री गुरुबक्स सिंह, वैज्ञानिक सी को डी.सी.वी, डी.आर.डी.ओ. हैडक्वार्टर में वैज्ञानिक डी के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में दिनांक 01 जुलाई 2003 से वेतनमान रु. 12000-375-16500 पर।

श्री पी. पी. सेठी, वैज्ञानिक सी, डी.सी.एस, डी.आर.डी.ओ. हैडक्वार्टर में वैज्ञानिक डी के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में दिनांक 01 जुलाई 2003 से वेतनमान रु. 12000-375-16500 पर।

जे. के. खडवाल  
 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

## (रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग)

सं. 509, दिनांक 04 अगस्त 03.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित स्थापन करते हैं:--

श्री जी. एन. खडंगा, व.गु.आ.अ. का गु.आ.नि. (धातु) ईशापुर में 04 अक्टूबर 02 (पूर्वाह्न) से अपर नियंत्रक के रूप में।

श्री आर. पी. शाही, प्र.वै.अ. (गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी) का व.गु.आ.स्था. (धातु) ईशापुर में 30 सितम्बर 02 (पूर्वाह्न) से व.गु.आ.अ. के रूप में।

श्री बी. जयाथीर्या, प्र.वै.अ. (गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी) का मुख्यालय गु.आ.नि. (इलेक्ट्रॉनिक्स) नई दिल्ली में 29 मई 03 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक के रूप में।

श्री विजय कुमार, प्र.वै.अ. (गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी) का व.गु.आ.स्था. (सा.भ.) मुम्बई में 28 अप्रैल 03 (पूर्वाह्न) से व.गु.आ.अ. के रूप में।

श्री बी. पी. सिंह, संयुक्त निदेशक का मुख्यालय गु.आ.नि. (वाहन) नई दिल्ली में 19 मई 03 (पूर्वाह्न) से अपर निदेशक के रूप में।

श्री एम. एस. सोनी, प्र.वै.अ. (गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी) का गु.आ.नि. (भारी वाहन) अवाडी में 19 मई 03 (पूर्वाह्न) से संयुक्त नियंत्रक के रूप में।

श्री के. सी. गर्ग, प्र.वै.अ. (गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी) का मुख्यालय गु.आ.नि. (वाहन) नई दिल्ली में 04 जून 03 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक के रूप में।

श्री सतपाल सिंह, संयुक्त निदेशक का मुख्यालय गु.आ.नि. (भंडार) नई दिल्ली में 18 जून 03 (पूर्वाह्न) से अपर निदेशक के रूप में।

श्री एस. एस. राव, संयुक्त नियंत्रक, गु.आ.नि. (सामग्री) कानपुर में 19 जून 03 (पूर्वाह्न) से नियंत्रक के रूप में।

श्री ए. ए. खान, प्र.वै.अ. (गैर-कार्यात्मक चयन श्रेणी) का मुख्यालय गु.आ.नि. (भंडार) नई दिल्ली में 23 जून 03 (पूर्वाह्न) से संयुक्त निदेशक के रूप में।

ए. के. घोषाल  
संयुक्त निदेशक

## वायु शाखा

सं. 510, दिनांक 06 अगस्त 03.--भारत के राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:--

## भारतीय वायुसेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में

एच के भटनागर (15809) वैड (वै), 01.06.99 (इनका नाम विंग कमांडर्स के. के. डांगडा (15622) वैड (वै) तथा एस. सी. गुप्ता (15822) वैड (वै) के बीच वरीयता सूची में आएगा)

आर. के. सिंह (16157)-वैड (वै), 01.06.99 (पी. आर. 31.08.00) (इनका नाम वरीयता सूची में विंग कमांडर एच. एल. साहा (16172)-वैड (यां) के नीचे आएगा)

डी. एन. त्रिपाठी (15958)-वैड (वै), 01.06.99 (इनका नाम विंग कमांडर्स एम. उपेन्द्र (16500)-वैड (वै) तथा आई. पी. शर्मा (116173)-वैड (यां) के बीच वरीयता सूची में आएगा।)

एम. के. चापू (16307)-वैड (वै), 01.10.99 (इनका नाम वरीयता सूची में विंग कमांडर टी. शंकरन (16316)-वैड (वै) के ऊपर आएगा)

टी. एन. अजित कुमार (16309)-वैड (वै), 01.10.00 (इनका नाम वरीयता सूची में विंग कमांडर अजित कुमार (16308)-वैड (वै) के नीचे आएगा)

पी. यादव (16320)-वैड (वै), 01.01.00 (इनका नाम वरीयता सूची में विंग कमांडर आर. पी. सिन्हा (16312)-वैड (वै) के ऊपर आएगा)

एस. आर. शर्मा (16310)-वैड (वै), 11.07.01/01.10.99 (एन. एस.) (इनका नाम वरीयता सूची में विंग कमांडर आर. एस. रोश (16315)-वैड (वै) के नीचे आएगा)

एस. के. शुक्ला  
सह निदेशक कार्मिक अधिकारी-2बी

## सेना शाखा

सं. 511, दिनांक 05 अगस्त 03.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 06.12.2000 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं, और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## कप्तान के पद पर

विजय कुमार (एम एस-13250ए) (एम आर-07837एच) (-) ए एम सी 11.11.1997 वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 11.05.1997 से हो जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02.06.2001 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय को अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 24.09.2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं, और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

## कप्तान के पद पर

गणेश मूर्ति राम मूर्ति वशिष्ठ (एम एस-13610एल) (एम आर-07832के) (-) ए एम सी 04.02.1999 (भारत सरकार के राजपत्र

दिनांक 08.09.2001 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।

तिसक बहादुर खात्री (एम एस-13839के) (एम आर-07914एम), ए एम सी, 23.06.1998, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 23.12.1997 से दी जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा-निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 09.03.2002 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर

कमल मिश्रा (एम एस-13487एक्स) (एम आर-07816एम) (75663), ए एम सी, 05.01.1999, (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05.02.2000 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 04.12.2001 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

कप्तान के पद पर

शेलेन्द्र कुमार चौधरी (एम एस-13640एच) (एम आर-07785एक्स), (---) ए एम सी, 02.08.1999, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 02.02.1999 से हो जाएगी। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्व वरिष्ठता शामिल है, जो सेवा-निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपादान के लिए नहीं मानी जाएगी। (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 04.01.2003 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर

सर्जन लेफ्टिनेन्ट मनील पटेल (एम एस-13418एफ) (एम आर-07819ए) (75659), ए एम सी, 18.12.1998, (दिनांक 05.02.1999 को इण्टर्निशप प्रशिक्षण के बाद दिनांक 06.02.1999 से कप्तान का पद दिया गया)। (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 11.09.1999 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

एम. श्रीवास्तवा  
ब्रिगेडियर

ड्रम. डीजीएफएमएस (पी)

सं. 512, दिनांक 31 जुलाई 03.--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पश्चिम बंगाल) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में सचिव श्री सुबीर दत्ता की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य

के रूप में होने के परिणामस्वरूप उन्हें 4 जुलाई, 2003 (अपराह्न) से भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त माना जाता है।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री. सुकुमार मंडल, उप सचिव की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31 मई, 2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

वी. सरस्वती  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 513, दिनांक 04 अगस्त 03.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष सेवा-निवृत्त होने की अनुमति देते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर (श्रीमती) शक्ति चक्रवर्ती, टी ए (एन)-1006, एम एन एस टी ए--30 अप्रैल 2003।

मेजर (श्रीमती) प्रतिभा डे, टी ए (एन)-1017, एम एन एस टी ए--31 जनवरी 2003।

मेजर (श्रीमती) फूल रानी शर्मा, टी ए (एन)-1018, एम एन एस टी ए--31 जनवरी 2003।

मेजर (श्रीमती) के एल मौलिक, टी ए (एन)-1029, एम एन एस टी ए--30 जून 2002।

मेजर (श्रीमती) आर भट्टाचारजी, टी ए (एन)-1065, एम एन एस टी ए--30 नवम्बर 2002।

एम. एल. शर्मा  
अवर सचिव

सं. 514, दिनांक 05 अगस्त 03.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मई 2002 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आई सी 19454 कर्नल नबीन श्रीवास्तव, सिगनल्स

आई सी 19879 कर्नल नरेन्द्र तलवार, सिगनल्स, वी एस एम

आई सी 23392 ले. कर्नल साजन सिंह, 1 जी आर

आई सी 24187 कर्नल करण सिंह राठौर, ए सी

आई सी 24340 ले. कर्नल (टी एस) चौहान कृष्ण कुमार, आर्टी

आई सी 25666 ले. कर्नल (टी एस) बिरेरा मोहन मछया, मेक इन्फेन्ट्री

आई सी 25760 ले. कर्नल अरविन्द कुमार शर्मा, ई एम ई

आई सी 28526 ले. कर्नल कैलाश चन्द्र, कुमाऊँ

आई सी 28859 कर्नल जोगिन्दर सिंह घूरा, 5 जी आर

आई सी 28873 ले. कर्नल परविन्दर सिंह भाटिया, ई एम ई

आई सी 28934 ले. कर्नल परम पाल सिंह ढिल्लौ, राजपूत

आई सी 29251 कर्नल लाल सिंह, एडी आर्टी

आई सी 29533 ले. कर्नल वरदाराजलू रादापुरम वेंकटराम, आर्टी

आई सी 30034 कर्नल शमशेर सिंह, मद्रास

आई सी 30304 कर्नल पंचाना रामाचन्द्रन, सिगनल्स

आई सी 30415 ले. कर्नल (टी एस) रणधीर सागर, ए ओ सी

आई सी 30506 ले. कर्नल (टी एस) राम भगत गोयल, सिगनल्स

आई सी 32191 कर्नल राज कुमार कपूर, सिगनल्स

आई सी 32210 ले. कर्नल (टी एस) सूर्यकान्त दयानोबा पटिल, मराठा  
एल आई

आई सी 32345 कर्नल उमेश चावला, राज रिफ

आई सी 32540 कर्नल धर्मासिंह कंगासाबापथी, मेक इन्फेन्ट्री

आई सी 32600 ले. कर्नल (टी एस) कंजीरा बोमिया सदाशिवा,  
3 जी आर

आई सी 32783 ले. कर्नल (टी एस) सतीश चन्द्र सूद, इन्जीनियर्स

आई सी 32788 ले. कर्नल (टी एस) तरसेम लाल सोबत, ए एस सी

आई सी 32797 ले. कर्नल मोहनन्दर सिंह, आर्टी

आई सी 33371 ले. कर्नल (टी एस) सुखविन्दर सिंह ढिल्लौ, आर्टी

आई सी 33415 कर्नल चमुडुपोटी विश्वमोहन, सिगनल्स

आई सी 33564 कर्नल श्रीरंगाचारी श्रीनिवासन, ए ओ सी

आई सी 33593 ले. कर्नल (टी एस) राज कुमार शर्मा, पंजाब

आई सी 33733 ले. कर्नल जागीर सिंह चौधरी, आर्टी

आई सी 33740 ले. कर्नल (टी एस) इरासेरी पुथानवीद बालाचन्द्रन,  
जैक एल आई

आई सी 34033 ले. कर्नल बबन नारायण थोरट, आर्टी

आई सी 34090 ले. कर्नल (टी एस) दामोदर गुरंग, जैक एल आई

एस एल 2512 ले. कर्नल राम प्रकाश दहिया, सिगनल्स

एस एल 2566 मेजर किशन सिंह जन्जहुआ, क्यू एम

एस एल 2701 मेजर वाजेकाट्टू जोसफ, इन्जीनियर्स

एस एल 2791 मेजर नाफे सिंह दहिया, आर ओ

एस एल 2833 मेजर पांडुरंग नायक, इन्जीनियर्स

एस एल 2850 मेजर वेद प्रकाश, सिगनल्स

एस एल 2914 मेजर सदासिवन नायर एम के, आर ओ

एस एल 2939 मेजर ए थमबूस्वामी, इन्जीनियर्स

एस एल 2988 मेजर वक्कालिगारा वीरान्ना अप्पास्वामी, ए ओ सी

एस एल 0511 केप्टन हरचन्द राम, आर्टी

एस एल 0608 केप्टन सतीश कुमार गुरंग, इन्फेन्ट्री

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 जून 2002 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं:--

#### नियमित सेना

##### स्थायी कमीशन

आई सी 23056 कर्नल सोम व्रत जोशी, कुमाऊँ

आई सी 23191 कर्नल दिलिप यादव, आर्टी

आई सी 23199 कर्नल महेन्द्र सिंह, महार

आई सी 23212 ले. कर्नल (टी एस) परमजीत इक्बाल कुलतरण सिंह,  
ए ओ सी

आई सी 23757 ले. कर्नल (टी एस) बलबीर सिंह खैलों, पंजाब

आई सी 23988 ले. कर्नल (टी एस) संजोय ब्रता राय, एडी आर्टी

आई सी 24227 ले. कर्नल (टी एस) विजय कुमार वोहरा, ई एम ई

आई सी 24281 ले. कर्नल (टी एस) विरेन्द्र सिंह, ए सी

आई सी 24537 ले. कर्नल (टी एस) चरण दत्त पंत, ए ई सी

आई सी 24814 ले. कर्नल (टी एस) यशबीर सिंह, सिगनल्स

आई सी 25619 ले. कर्नल (टी एस) परविन्दर कुमार, मराठा एल आई

आई सी 25659 ले. कर्नल (टी एस) कुप्पुराव हरीश नौले, इन्जीनियर्स

आई सी 25721 ले. कर्नल (टी एस) नरेन्द्र सिंह, गाईस

आई सी 27089 ले. कर्नल शान्ती पुरन खालखो, राजपूत

आई सी 27136 ले. कर्नल (टी एस) अमोलक सिंह, ए एस सी

आई सी 27903 ले. कर्नल अवतार सिंह औजला, सिगनल्स

आई सी 27934 कर्नल सत्येन्द्र कुमार जैन, सिगनल्स

आई सी 28304 कर्नल शमशेर सिंह, आर्टी

आई सी 29219 ले. कर्नल (टी एस) युद्धबीर सिंह, इन्जीनियर्स

आई सी 29385 ले. कर्नल बलमिन्दर सिंह चाहल, सिख एल आई

आई सी 29399 कर्नल विजय कुमार, पंजाब

आई सी 29455 ले. कर्नल विरेन्द्र सिंह बिस्ट, इन्जीनियर्स

आई सी 29770 ले. कर्नल गजिन्दर सिंह बेदी, आर्टी

आई सी 30242 मेजर पृथ्वी सिंह लोहरा, ई एम ई

आई सी 31588 कर्नल नरेश कुमार, इन्जीनियर्स

आई सी 32084 ले. कर्नल (टी एस) देविन्दर सिंह पठानिया, मेक  
इन्फेन्ट्री

आई सी 32086 कर्नल भूपिन्दर सिंह आहूजा, पी एन आर कोर

आई सी 32157 ले. कर्नल (टी एस) हरजिन्दर सिंह, मद्रास

आई सी 32248 कर्नल सतपाल सिंह, आर्टी

आई सी 32403 ले. कर्नल (टी एस) जस करन सिंह शेखों, सिख

आई सी 33538 कर्नल के राम सिंह रतकुरिया, ए सी

आई सी 33764 ले. कर्नल प्रेम चन्द्र मामगेन, ए ओ सी

आई सी 34224 ले. कर्नल (टी एस) बिनोदे बिहारी सिन्हा, आर्टी

आई सी 36198 कर्नल बलकार सिंह, ई एम ई

एस एल 2302 ले. कर्नल गोविन्द प्रसाद बर्थवाल, आर ओ

एस एल 2557 मेजर बसंत कुमार राणा, क्यू एम  
 एस एल 2712 मेजर प्रभाकरन छलील, सिगनल्स  
 एस एल 2763 मेजर बनवारी लाल यादव, आर ओ  
 एस एल 2864 मेजर संत बख्तास सिंह, सिगनल्स  
 एस एल 3128 मेजर जे एस चीमा, आर ओ  
 एस एल 3278 मेजर रवि सिंह परमार, ई एम ई  
 एस एल 3297 मेजर जम्बुलुरी वेंकट रेड्डी, ई एम ई  
 एस एल 3377 मेजर लेखक नारायण दत्त, इन्जीनियर्स  
 आर सी 0571 केप्टन पुष्पा नाथ, ई एम ई  
 आर सी 0631 केप्टन बोकीनाला जॉन, सिगनल्स

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 जुलाई 2002 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं:--

## नियमित सेना

## स्थाई कमीशन

आई सी 23156 कर्नल शशी किरन मैनी, आर्टी  
 आई सी 23355 ले. कर्नल सतीश कुमार, गार्ड्स  
 आई सी 23348 ले. कर्नल जोसफ विक्टर मसकेरिनहस, मराठा एस  
 आई

आई सी 23446 ले. कर्नल प्रेम प्रकाश मित्तल, आर्टी  
 आई सी 23668 ले. कर्नल बलराम वार्या, इन्जीनियर्स  
 आई सी 23919 ले. कर्नल (टी एस) विक्टर दुरईस्वामी, आर्टी  
 आई सी 24041 ले. कर्नल गजेन्द्र सिंह शेखावत, 1 जी आर  
 आई सी 24072 कर्नल पल्लभ कुमार दास गुप्ता, इन्जीनियर्स  
 आई सी 24239 ले. कर्नल (टी एस) बीहरी रमेश दत्तार्य, आर्टी  
 आई सी 24542 कर्नल अर्जुन पाल चावला, इन्जीनियर्स  
 आई सी 24766 कर्नल कुलवन्त सिंह, इन्जीनियर्स  
 आई सी 25363 कर्नल बिजय कान्त झा, ए ई सी  
 आई सी 25767 ले. कर्नल महेन्द्र सिंह, सिगनल्स  
 आई सी 25770 ले. कर्नल टेक चन्द आघी, ए ई सी  
 आई सी 25778 ले. कर्नल प्रदीप कुमार गुप्ता, इन्जीनियर्स  
 आई सी 25850 कर्नल लक्ष्मन सिंह राणा, आसाम  
 आई सी 27160 ले. कर्नल (टी एस) विवेश ओहरी, इन्जीनियर्स  
 आई सी 27172 ले. कर्नल प्रेम शंकर त्रिपाठी, सिगनल्स  
 आई सी 27768 ले. कर्नल (टी एस) सुरजीत सिंह, ए एस सी  
 आई सी 27891 कर्नल मोहन दास मेनन, ई एम ई  
 आई सी 28931 ले. कर्नल इन्द्राज सिंह, राज रिफ  
 आई सी 28990 कर्नल सैयद यासीन, इन्जीनियर्स  
 आई सी 29598 ले. कर्नल (टी एस) अनिल कुमार बहल, गार्ड्स  
 आई सी 29908 कर्नल योगेन्द्र पाल सिंह, सिगनल्स  
 आई सी 30640 कर्नल ब्रह्मा दत्ता त्यागी, एस एम, सिगनल्स

आई सी 31441 ले. कर्नल सूरज भान तिवारी, ए एस सी  
 आई सी 31796 ले. कर्नल (टी एस) कार्तिक चन्द्र, ए एस सी  
 आई सी 32178 ले. कर्नल राकेश चन्द्र कुकरीटि, राजपूत  
 आई सी 32263 ले. कर्नल राम कृष्ण, आर्टी  
 आई सी 32645 ले. कर्नल (टी एस) अभिजीत कुमार वर्मा, इन्जीनियर्स  
 आई सी 32773 ले. कर्नल (टी एस) पांडे दर्शन सिंह, आर्टी  
 आई सी 32961 कर्नल अजीत कुमार दत्ता, सिगनल्स  
 आई सी 32983 कर्नल जामालमादाका राधा कृष्ण मूर्ति, सिगनल्स  
 आई सी 33190 ले. कर्नल (टी एस) इलुमलाई अरूण मणी, डोगरा  
 आई सी 33267 कर्नल ओम प्रकाश नेहरा, मद्रास  
 आई सी 33497 ले. कर्नल (टी एस) जोगिन्दर सिंह, ए एस सी  
 आई सी 33567 ले. कर्नल (टी एस) नरेश सीताराम कुलकर्णी,  
 ई एम ई

आई सी 33569 ले. कर्नल हनुमान प्रसाद, आर्टी  
 आई सी 36109 मेजर सुरजीत सिंह, आर्टी  
 एस एल 2387 ले. कर्नल नल्लाम्पन कैलाश नाथन, आर ओ  
 एस एल 2473 मेजर जस राम पोकीयाल, आर ओ  
 एस एल 2504 ले. कर्नल रघुबर शरण काला, सिगनल्स  
 एस एल 2745 मेजर लाल सिंह अम्ब्रायन, क्यू एम  
 एस एल 3003 मेजर दिलबाग सिंह ढाका, क्यू एम  
 एस एल 3077 मेजर अरूमुगम दुरईस्वामी, ए ओ सी  
 एस एल 3228 मेजर रामेश्वर, सिगनल्स  
 एस एल 3341 मेजर सुरेन्द्र सिंह भंडारी, आर ओ  
 एस एल 3419 मेजर रामा शंकर दूबे, ई एम ई  
 एस एल 3518 मेजर शिव चरण, आर ओ  
 आर सी 0570 केप्टन एम आर पत्ताबिरमन, इन्जीनियर्स  
 आर सी 0673 केप्टन चमन लाल गुप्ता, सिगनल्स  
 आर सी 0705 केप्टन यू टी मेल्थयू, ई एम ई

एच. एम. नायक  
 संयुक्त निदेशक  
 एम एस सेवानिवृत्ति

(थल सेना विभाग)

सं. 515, दिनांक 06 अगस्त 03.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अफसर को कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

## नियमित सेना

## सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

## (अल्पकालीन कमीशन)

स्क्वाड्रन लीडर डी बिन्दू राव (डी एस-11975 एफ) (24719 एच),  
 29.04.2003 (ए एन)

जे. एल. शर्मा  
 लैफ्टि. जनरल  
 डी जी डी एस

## MINISTRY OF DEFENCE

No. 495, dated 31st July 03:—The President is pleased to appoint Shri Ajay Prasad, IAS (HP : 69), on transfer from the Ministry of Home Affairs as Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence w.e.f. 14.7.2003 (FN) until further orders.

B. B. THAKUR, Director

No. 496, dated 31st July, 03:—The President is pleased to appoint Smt. Uma Pillai, IAS (UP : 68) on transfer from the Rural Electrification Corporation as Secretary, Department of Defence Production and Supplies, Ministry of Defence w.e.f. 9.7.2003 (FN) until further orders.

The President is pleased to appoint Shri P.K. Anand, IAS (RJ : 83) on transfer from Department of Secondary and Higher Education, as Joint Secretary in the Ministry of Defence w.e.f. 3.7.2003 (FN) up to 8.5.2006 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Sudhir Nath, IAS (MP : 74) on transfer from the Govt. of Madhya Pradesh, as Joint Secretary in the Department of Defence Production & Supplies, Ministry of Defence w.e.f. 13.6.2003 (FN) up to 12.6.2008 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri C.K. Mishra, IAS (BH : 83) as Private Secretary to Raksha Mantri (Shri George Fernandes) in the rank and pay of Joint Secretary for the balance period of his tenure i.e. upto 12.10.2004 or till he ceases to function as PS to RM, whichever event takes place earlier.

The President is pleased to appoint Smt. Renu C. Deshpande, ICAS : 88, Deputy Secretary Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 18.06.2003 (FN) up to 1.9.2004. or until further orders whichever is earlier.

The Presidents is pleased to appoint Shri Harbans Singh, CSS on tranfer from the Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, as Deputy Secretary in the Ministry of Defence w.e.f. 23.7.2003 (FN), Until further orders.

The President is pleased to extend the appointment of Shri K. Gangaraju, Principal Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Defence as Sr. Principal Private secretary in the pay scale of Rs. 12000-375-16500, in the same Ministry on ad-hoc basis for a further period from 1.7.2003 to 31.12.2003 or till the regular Sr. PPS become available or till further orders, whichever is earlier.

2. The continuation of above ad-hoc promotion is purely ad-hoc in nature and shall not confer on the appointee any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS of CSSS.

The President is pleased to appoint Shri V. K. Luthra, CSS, on transfer from the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry to Grade I of the CSS (Under Secretary) in the Ministry of Defence w.e.f. 9.5.2003 (FN), until further orders.

2. The aforesaid appointment is purely on ad-hoc basis pending preparation of Select List of Grade I of CSS or until further orders. The officer shall have no claim for inclusion of his name in the select list of Grade I of CSS on the basis of this ad-hoc appointment. The adhoc appointment shall not be used to claim seniority as and when the name of Shri V.K. Luthra is included in the select list for Grade I of the CSS.

The President is pleased to appoint Smt. Saheli Ghose roy, CSS, on transfer from the Department of Posts, Ministry of Communications and Information technology to Grade I of the CSS (Under Secretary) in the Ministry of Defence w.e.f. 3.7.2003 (FN), until further orders.

2. The aforesaid appointment is purely on ad-hoc basis pending preparation of Select List of Grade I of CSS or until further orders. The officer shall have no claim for inclusion of his name in the select list of Grade I of CSS on the basis of this ad-hoc appointment. The ad-hoc appointment shall not be used to claim seniority as and when the name of Smt. Saheli ghose roy is included in the select list for Grade I of the CSS.

The President is please to appoint Shri M.M. Singh, CSS, on transfer from the National Commission for SC & ST to Grade I of the CSS (Under Secretary) in the Ministry of Defence w.e.f. 20.05.2003 (FN), until further orders.

The President is pleased to appoint Shri Depak Sajwan, Assistant, borne on the CSS Cadre of Union Public Service Commission, as Section Officer on regular basis in the Ministry in the scale of pay of Rs. 6500-10,500 with effect from the forenoon of 3rd June, 2003 until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Exam. Quota) for the year 2001.

The President is pleased to appoint Shri B.S. Dahiya, Assistant (ad-hoc Section Officer), borne on the CSS Cadre of Ministry of Home Affairs, as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence w.e.f. forenoon of 17th July, 2003 until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2000.

The President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar, Assistant, borne on the CSS Cadre of Ministry of Civil Aviation, as Section Officer on regular basis in the Ministry in the scale of pay of Rs. 6500-10,500/- with effect from the afternoon of 30th May, 2003 until further orders consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Exam. Quota) for the year 2001.

The President is pleased to extend the appointment of the following grade 'C' Stenographers borne on the CSSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretary (Merged Grade A&B of CSSS) in the same Ministry on ad-hoc basis for the further period, mentioned against each:

Sl. No.	Name of the Officer	From	To
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	S. K. Banerjee	1.4.2003	30.6.2003
2.	J. P. Mathur	1.4.2003	30.6.2003

1	2	3	4
3.	Rajinder Pd. Sharma	1.4.2003	30.6.2003
4.	Narendra Chadha	1.4.2003	30.6.2003
5.	Harvinder Chawla	1.4.2003	30.6.2003

V. SARASWATHY, Under Secy.

**DTE GEN OF QUALITY ASSURANCE/DQAN**

No. 497, Dated 1st August, 03:—The President is pleased to appoint Sh. Munshi Ram, Asst. (Group 'B' Non-Gazetted) as officiating Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the AFHQ Civil Service with effect from 29.08-2002 until further orders.

The President is pleased to appoint Sh. Ram Singh, Asst (Group 'B' Non-Gazetted) as officiating Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the AFHQ Civil Service with effect from 28-02-2002 until further orders.

SANTOSH DASGUPTA,  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

No. 498, dated 6th August, 03:—The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79 as amended 5/96.

**REGULAR ARMY**  
**ARMY DENTAL CORPS**  
**SHORT SERVICE COMMISSION**

To be LT (On Probation)

DS-12097H Ashok Kumar, 03-04-03  
DS-12098L (Ms) Neha Gupta, 04-04-03  
DS-12099N Shri N.G. Krishan Kumar Nair, 10-04-03  
DS-12100X (Ms) Ritu Kalra, 18-04-03  
DS-12101A (Ms) Gagan Kahlon, 24-04-03  
DS-12102H (Ms) Mahalaxmi HS, 01-05-03

J. L. SHARMA  
Lt. Gen. DGDS

No. 499, dated 05th August, 03:—The President is pleased to make the following appointment under AI 74/76 as amended:

**REGULAR ARMY**  
**PERMANENT COMMISSION**

(To be Fg Offr. (On Prob))

Saket Davera (MR-07717-K) (AF-26911), AMC,  
29-04-2002

Anju Singhal (Mr-07718-M) (AF-26912), AMC,  
29-04-2002

M. SRIVASTAVA  
Brig.  
Dy. DGAFMS (P)

To be Lt (On Prob)

Ashish Pandey MR-07842-N, AMC-22 Feb 2003  
Puneet Saxena MR-07846-K, AMC-22 Feb 2003  
Km. Sumedha Dhar MR-07847-M, AMC-22 Feb 2003  
Aneesh Mohimen MR-07848-P, AMC-22 Feb 2003  
Km. T.P. Shashikala MR-07849-X, AMC-22 Feb 2003  
E. Sibi MR-07850-M, AMC-22 Feb 2003  
Madabhushi Shyam MR-07851-P, AMC-22 Feb 2003  
Govind Menon MR-07852-X, AMC-22 Feb 2003  
Ravindu Prabhat Tiwari MR-07853-A, AMC-22 Feb 2003

M. SRIVASTAVA,  
Brig.  
Dy. DGAFMS (P)

No. 500, dated, 31st July, 03:—The President is pleased to extend the tenure of appointment of Shri Puneet Kumar, IAS (KL : 93), as Private Secretary to Raksha Utpadan Rajya Mantri (Shri O. Rajagopal) for a period of one year beyond 18-04-2003 i.e. upto 18-04-2004 or till he ceases to function as PS to RURM, whichever event takes place earlier.

V. SARASWATHY,  
Under Secy.

No. 501, dated 31st July, 03:—Consequent on being approved for appointment as Secretary (Banking and Insurance), Department of Economic Affairs, the services of Shri N.S. Sisodia, IAS (RJ : 68), Secretary, Department of Defence Production and Supplies, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Ministry of Finance w.e.f. 7.7.03 (AN).

Consequent on being approved for appointment as Secretary (Border Management), Ministry of Home Affairs, the services of Shri Pratyush Sinha, IAS (BH : 69), Additional Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Ministry of Home Affairs w.e.f. 1.7.2003 (FN).

Consequent on being approved for appointment as Secretary in the Ministry of Disinvestment, the services of Shri Dhirendra Singh, IAS (KN:68), Special Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Ministry of Disinvestment w.e.f. 1.7.2003 (FN).

On completion of his extended tenure, the services of Shri Rakesh Srivastava, IAS (RJ:81), Joint Secretary, Ministry of Defence are placed at the disposal of the govt. of Rajasthan w.e.f. 13.6.2003 (FN).

On completion of her tenure/earned leave granted to her, the services of smt. S.S. Pujari, IDES (80), Director, Ministry of Defence are placed at the disposal of the DGDE, West Block, IV, R. K. Puram, New Delhi w.e.f. 23.6.2003 (FN).

2. Ministry of Defence Notification of even number dated 28.5.2003 is cancelled.

V. SARASWATHY,  
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 502, dated 1st August, 03:—The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Short Service Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended.

REGULAR ARMY

(ARMY DENTAL CORPS)

SHORT SERVICE COMMISSION

CONFIRMATION

DS-12016X Capt A. Misuriya, 15-05-2000

DS-12054N Capt J.R. Balasubramanayam, 10-03-2002

The President is pleased to confirm the undermentioned officer in the Permanent Commission on successful completion of probationary period of two years in terms of AI 37/78 as amended:

REGULAR ARMY

(ARMY DENTAL CORPS)

DIRECT PERMANENT COMMISSION

CONFIRMATION

DR-10517Y Capt C. S. Chattopadhyay, 19-10-2000

J. L. SHARMA  
Lt. Gen. DGDS

(ARMY BRANCH)

No. 503, dated 4th August, 2003.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

CORPS OF SIGNALS

To be Naib Subedar (Y of S)

Hav N Selvarasu (No. 15353033X now JC-374999Y), 22nd Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Vijay Singh (No. 14262161L now JC-375004W), 1st Feb 2003.

Hav Devendra Singh (No. 15366769H now JC-375005Y), 16th Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kota Narayana Dora (No. 14267452P now JC-375030X), 12th Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Harpal Singh (No. 15360154F now JC-375031A), 1st Apr 2003.

Hav N Sureth (No. 15356481P now JC-375032H), 1st Apr 2003.

To be Naib Subedar (F of S)

Hav Thangaraja S (No. 15378489F now JC-375007K), 1st Feb 2003.

Hav Ramphal Singh (No. 15365619A now JC-375009P), 5th Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Krishna Kumar S (No. 15363534L now JC-375014A), 20th Feb 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Latheesh C N (No. 15369616K now JC-375016L), 17th Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Pannir Selvam S (No. 15369875M now JC-375018W), 30th Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Dhananjai Singh (No. 15367881F now JC-375022Y), 26th Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (GD)

Hav Nagendra N Roy (No. 14246485M now JC-374967W), 10th Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Kunjumon E M (No. 14237557K now JC-374969F), 12th Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Singh (No. 14237586Y now JC-374970W), 31st Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Vijay Kumar Singh (No. 14230828N now JC-374978H), 1st Mar 2003.



Hav Dhani Ram (No. 14271064P now JC-374979L), 1st Mar 2003.

Hav Bijay Pal (No. 14246426A now JC-374835H), 1st Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 2nd Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Hav P Jaya Kumar (No. 14233594A now JC-374981H), 22nd Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Bijendra Singh (No. 14298354W now JC-374982L), 1st Mar 2003.

Hav M S Nair T K (No. 14244311N now JC-374983N), 1st Mar 2003.

Hav Kirpal Singh (No. 14247496L now JC-374984W), 1st Mar 2003.

Hav Balbir Singh (No. 14241004L now JC-374986F), 1st Mar 2003.

Hav Vijay Singh Rana (No. 14242919K now JC-374987K), 3rd Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Satheesan P A (No. 14247395X now JC-374988M), 1st Mar 2003.

Hav N B Reddy (No. 14246166A now JC-374989P), 1st Mar 2003.

Hav Babu Aravalli (No. 14246206W now JC-374990K), 1st Mar 2003.

Hav Balwant Rai (No. 14246663K now JC-374991M), 1st Mar 2003.

Hav Akshaya Kumar Sahoo (No. 14245900W now JC-374992P), 1st Mar 2003.

Hav Kirve Mahadev Pilba (No. 14247451L now JC-374993X), 1st Mar 2003.

Hav Dataram Kumar Pal Darbar (No. 14296653W now JC-374955F), 12th Mar 2003.

Hav Dharmeshwar Yadav (No. 14229977P now JC-374971Y), 7th May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12th Mar 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Awadh Naresh (No. 14243973K now JC-374994A), 1st Apr 2003.

Hav Deonath Chaubey (No. 14244884X now JC-374995H), 4th Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Satish Kumar (No. 14247213Y now JC-374996L), 1st Apr 2003.

Hav Mahavir Singh (No. 14245554L now JC-375039M), 1st Apr 2003.

Hav Basananagouda Goudra (No. 14246198H now JC-375040F), 1st Apr 2003.

Hav Abhay Mahu (No. 14247504Y now JC-375041K), 9th May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Niwas (No. 14246311M now JC-375042M), 1st Apr 2003.

Hav Vijaya Kumaran Nair (No. 14244093A now JC-375044X), 1st Apr 2003.

Hav Lakhan Singh (No. 14243598K now JC-375045A), 1st Apr 2003.

Hav Hari Kumar G (No. 14231294A now JC-375046H), 1st Apr 2003.

Hav Om Prakash (No. 14245848Y now JC-375047L), 1st Apr 2003.

Hav K Arjun Pandurang (No. 14246154L now JC-375048N), 1st Apr 2003.

Hav Joy Govinda Mallick (No. 14235765A now JC-375049W), 17th Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Satbir (No. 14247095W now JC-375050L), 1st Apr 2003.

Hav Rajender Prasad (No. 14243640X now JC-375051N), 1st Apr 2003.

Hav Sharwan Kumar (No. 14247767X now JC-375052W), 1st Apr 2003.

Hav Kundan Singh (No. 14229238H now JC-375053Y), 1st Apr 2003.

Hav Jugal Kishor Gena (No. 14247449N now JC-375054F), 9th Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 2003 without effect on pay and allowances).

Hav P Rajan Edachira (No. 14244132N now JC-375055K), 1st Apr 2003.

Hav Ashok Kumar Singh (No. 14241730K now JC-375056M), 1st May 2003.

Hav Mahavir Singh (No. 14247326F now JC-375057P), 1st May 2003.

Hav Gurbinder Singh (No. 15369083M now JC-375058L), 1st May 2003.

Hav Ramesh Kumar (No. 14246971K now JC-375065N),  
7th May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Bajrang Lal (No. 14227898F now JC-375067Y),  
1st May 2003.

Hav Devadasan Nair P (No. 14227167N now JC-375068F),  
1st May 2003.

Hav V Raghunath Dubal (No. 14227745X now JC-375069K), 1st May 2003.

Hav S Ranga Nyakulu (No. 14297969P now JC-375070Y),  
1st May 2003.

Hav Rama Autar (No. 14241134N now JC-375072K), 1st  
May 2003.

Hav Satyavir Singh (No. 14237568W now JC-375073M),  
1st May 2003.

Hav Ramesh Chander (No. 14297789M now JC-375074P)  
1st May 2003.

Hav Yesudhasan A (No. 14298677Y now JC-375075X)  
1st May 2003.

Hav S. S Prasad Singh (No. 14236362M now JC-375096N)  
13th May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May  
2003 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Singh (No. 14246730X now JC-375098Y)  
14 May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May  
2003 without effect on pay and allowances)

Hav Ranbir Singh (No. 14233818P now JC-375100L) 14th  
May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May  
2003 without effect on pay and allowances).

Hav R. K. Singh (No. 14245889H now JC-375101N) 1st  
May 2003.

Hav Balwan Singh (No. 14243575H now JC-375102W)  
7th May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May  
2003 without effect on pay and allowances).

Hav P. K. Mohanty (No. 14246637H now JC-375104F)  
6th May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May  
2003 without effect on pay and allowances).

Hav PPSSM Rao (No. 14240499W now JC-375105K) 17th  
May 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May  
2003 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (Y of S)

Hav S. Ahamadulla (No. 14268122H now JC-374997N)  
19th Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003  
without effect on pay and allowances).

Hav Takamoge Shankar A (No. 15350643Y now JC-  
374998W) 8th Feb 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003  
without effect on pay and allowances).

Hav Mahesh Kumar (No. 14259477M now JC-375000A)  
27th Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003  
without effect on pay and allowances).

Hav Dev Charan (No. 15363238A now JC-375003A) 13th  
Feb 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003  
without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (F of S)

Hav Ghorpade Arun B. C. (No. 15378164N now JC-  
375008M) 23rd Feb 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003  
without effect on pay and allowances).

Hav Prem Singh (No. 15365402W now JC-375010K) 1st  
Feb 2003.

Hav Palani Samy M. (No. 15378491Y now JC-375011M)  
11th Feb 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003  
without effect on pay and allowances).

Hav Ananda Kumar B (No. 15373189W now JC-375012P)  
9th Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003  
without effect on pay and allowances).

Hav Bichitrahanda Sahoo (No. 15369632F now JC-  
375013X) 1st Feb 2003.

Hav Dulal Chandra Mandal (No. 15369673L now JC-  
375017N) 9th Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003  
without effect on pay and allowances).

Hav Mohamed Sherif H (No. 15366080N now JC-  
375019Y) 29th Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003  
without effect on pay and allowances).

Hav Mahendranath Chauhan (No. 15369705H now JC-  
375020N) 1st Feb 2003.

Hav A Selvam (No. 15363070Y now JC-375021W) 23rd  
Feb 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003  
without effect on pay and allowances).

Hav B. S. Bohra (No. 15369412X now JC-375024K) 1st Feb 2003.

Hav Amar Singh (No. 15362536K now JC-375025M) 1st Feb 2003.

Hav Narasimha Prabhu M (No. 15372961H now JC-375026P) 31st March 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav M. K. Anil (No. 15373245K now JC-375027X) 24th Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Rambelash Yadava (No. 15368535X now JC-375028A) 1st Feb 2003.

Hav Measuvara Murthy (No. 15370304A now JC-375029A) 28th Feb 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (OP Ciph)

Hav Naresh Datt (No. 14239856F now JC-375058X) 1st May 2003.

Hav Partha Sarathy K (No. 14242596M now JC-375080H) 1st May 2003.

To be Naib Subedar (OP Spec)

Hav Prabhu Dayal (No. 14250318N now JC-374953W) 1st Feb 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 9th Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Niwas (No. 14247476X now JC-374952N) 1st Feb 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 9th Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Pal (No. 14250381H now JC-374973K) 1st Feb 2003.

Hav Braja Kishore Sahoo (No. 14252018L now JC-374974M) 1st Mar 2003.

Hav Jaipal Singh Rawat (No. 14242221N now JC-375034N) 1st Apr 2003.

Hav Jai Bhagwan (No. 14252109P now JC-3750059A) 1st Apr 2003.

Hav V. Anjappa (No. 14252461Y now JC-375061X) 1st May 2003.

To be Naib Subedar (Clk GD)

Hav H. K. Behera (No. 14249425H now JC-3750037F) 1st Apr 2003.

Hav Vijaya Kumaran P. K. (No. 14249733H now JC-375091P) 1st May 2003.

To be Naib Subedar (SKT)

Hav Ram Lal (No. 14239483Y now JC-374977A) 21st Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 2003 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (GD)

Hav Bhagwan Singh (No. 14227841M now JC-374870L) 26th Sep 2002.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Uttam Singh (No. 14240014H now JC-374534Y) 1st Apr 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Chand (No. 14299931K now JC-374630N) 17th May 2002.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Kamlesh Prasad Singa (No. 14227648A now JC-374854N) 1st Oct. 2002.

Hav Narinder Singh (No. 14224328A now JC-374856Y) 1st Nov. 2002.

Hav Amanjit Singh (No. 14224292M now JC-374858K) 1st Nov 2002.

Hav Ajit Kumar Sarkar (No. 14298062N now JC-374861K) 1st Nov 2002.

Hav B. N. Roy (No. 14228053P now JC-374863P) 1st Nov 2002.

Hav Asit Kumar Samanta (No. 14228185H now JC-374865A) 1st Nov 2002.

Hav SAK Singha (No. 14298589H now JC-374867L) 1st Nov 2002.

Hav Meer Singh Lamba (No. 14270799M now JC-374869W) 1st Nov 2002.

Hav A. K. Singh (No. 14270004H now JC-374874F) 2nd Dec 2002.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Balraj Singh (No. 14298635M now JC-374875K) 12th Dec 2002.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Ramji Singh (No. 14227997K now JC-374876M) 8th Dec 2002.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Hav S. K. Samanta (No. 14227271F now JC-374877P) 1st Dec 2002.

Hav Jagat Singh (No. 14246448Y now JC-374878X) 10th Dec 2002.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Sudharshan (No. 14247212W now JC-374879A) 1st Dec 2002.

Hav T. P. Singh (No. 14230017H now JC-374880P) 1st Dec 2002.

Hav Hukam Singh (No. 14270262N now JC-374881X) 1st Dec 2002.

Hav Ram Lubhaya (No. 14230101H now JC-374882A) 1st Dec 2002.

Hav Rajeshwar Singh (No. 14270489F now JC-374883H) 1st Dec 2002.

Hav Lal Chand Yadav (No. 14270610K now JC-374884L) 1st Dec 2002.

Hav Vishnu Datt (No. 14270791A now JC-374885N) 1st Dec 2002.

Hav Tenzini Rangkhaur (No. 14270969L now JC-374886W) 1st Dec 2002.

Hav Rafeek Ahmed (No. 14224265H now JC-374937Y) 1st Jan 2003.

Hav A. K. Jha (No. 14236883A now JC-374938F) 1st Jan 2003.

Hav L. P. Singh (No. 14234881W now JC-374940Y) 1st Jan 2003.

Hav S. B. B. Ray (No. 14227381W now JC-374941F) 1st Jan 2003.

Hav Jai Prakash Singh (No. 14297825M now JC-374942K) 1st Jan 2003.

Hav Sham Lal (No. 14271056W now JC-374943M) 1st Jan 2003.

Hav Ramesh Chander (No. 14234354P now JC-374944P) 1st Jan 2003.

Hav Swapan Kumar Ghosh (No. 14235775K now JC-374946A) 1st Jan 2003.

Hav Rajan Pillai C. S. (No. 14241541W now JC-374947H) 13th Jan 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 2003 without effect on pay and allowances).

Hav G. A. Haffee (No. 14247053K now JC-374949N) 1st Jan 2003.

Hav Rengasamy L. (No. 15371061M now JC-374959X) 1st Feb 2003.

Hav Nasib Singh (No. 14242588N now JC-374962X) 1st Feb 2003.

Hav Shamsheer Singh (No. 14270928F now JC-374964H) 1st Feb 2003.

Hav Narotam Singh (No. 14246265H now JC-374965L) 19th Mar 2003.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 2003 without effect on pay and allowances).

#### ARMY SERVICE CORPS (SUPPLY)

To be Subedar Major: Personal Assistant

Subedar Gangadharan Keezhana (JC-209017Y) 01 Sep 2002.

Subedar Mahesh Kumar Subba (JC-217291L) 01 Nov 2002.

Subedar Santanu De (JC-209020Y) 01 Jan 2003.

Subedar Sanjib Kumar Agasti (JC-224693L) 06 Mar 2003\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2003 without effect on pay & allces.)

To be Subedar Personal Assistant

Naib Subedar Sadhu Singh (JC-641639F) 01 Jun 2002.

Naib Subedar Satish Kumar (JC-641640W) 04 Aug 2002\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2002 without effect on pay & allces.)

Naib Subedar. Sasidharan Pillai K (JC-641641Y) 01 Aug 2002.

Naib Subedar Parshotam Lal Sharma (JC-641996K) 01 Sep 2002.

Naib Subedar Dilbagh Singh (JC-641642F) 01 Sep 2002.

Naib Subedar Ujjal Singh (JC-641646X) 01 Sep 2002.

Naib Subedar T. Panchanatham (JC-641648H) 01 Sep 2002.

Naib Subedar Rajmani Prasad (JC-641649L) 01 Nov 2002.

Naib Subedar Krishan Kumar (JC-641650A) 01 Dec 2002.

Naib Subedar Hari Das Mukherjee (JC-641651H) 01 Dec 2002.

Naib Subedar R. K. Saniyayaima Singha (JC-641822K) 01 Jan 2003.

Naib Subedar Ratan Lal Kain (JC-641823M) 01 Jan 2003.

Naib Subedar Balakrishnan V. R. (JC-641824P) 01 Feb 2003.

Naib Subedar Aniyankunju C. D. (JC-641825X) 01 Feb 2003.

Naib Subedar Ravinder Kumar (JC-641827H) 01 Feb 2003.

Naib Subedar R. Sankunny (JC-641997M) 01 Mar 2003.

Naib Subedar Adhangale Kachru Trimbak Rao (JC-641998P) 01 Mar 2003.

Naib Subedar Ram Kishor Suyal (JC-641999X) 01 Apr 2003.

Naib Subedar Somarajan V. K. (JC-642001F) 01 Apr 2003.

Naib Subedar Kunja Bihari Parida (JC-642002K) 01 Apr 2003.

To be Naib Subedar: Personal Assistant

Hav Bhaskaran A. T. (14472689A now JC-642768N) 08 Aug 2002\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2000 without effect on Pay & allces.)

Hav Balasubramanian R (6375595N now JC-642799N) 01 Apr 2002\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2001 without effect on Pay & allces.)

Hav Venugopalan K. P. (13869344L now JC-642803L) 21 Jan 2003\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2002 without effect on Pay & allces.)

Hav Tilak Raj (6650106L now JC-642812M) 01 Nov 2002.

Hav Nigar Qureshi (6375624X now JC-642813P) 01 Nov 2002.

Hav Rakesh Kumar Sagar (6376142P now JC-642814X) 01 Nov 2002.

Hav Ramesh Singh (6376190P now JC-642872F) 01 Nov 2002.

Hav Nand Kumar Singh (6376311L now JC-642815A) 01 Nov 2002.

Hav Radha Krishnan S. P. (14229956Y now JC-642816H) 01 Nov 2002.

Hav Lukkose V. T. (14475725L now JC-642856K) 01 Nov 2002.

Hav Ashok Kumar Sirohi (4174798P now JC-642817L) 01 Nov 2002.

Hav Dilip Kumar Singh (6376354A now JC-642804N) 05 Feb 2003\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2002 without effect on pay & allces.)

Hav Bachittar Singh (14336637K now JC-642818N) 01 Nov. 2002.

Hav H. C. Behera (14339109L now JC-642819W) 01 Nov 2002.

Hav Joseph P.C. (6376416P now JC-642846A) 01 Nov 2002.

Hav Unnikrishnan Arennil (14476846Y now JC-642820L) 01 Nov 2002.

Hav Surjit Singh (14547481F now JC-642821N) 01 Nov 2002.

Hav N. C. Dhankar (4462558K now JC-642857M) 01 Dec 2002.

Hav Amrit Lal (6377179H now JC-642822W) 01 Dec 2002.

Hav Surinder Singh (6376448X now JC-642823Y) 01 Jan 2003.

Hav Hayat Singh (4173278X now JC-642824P) 19 Feb 2003\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2003 without effect on pay & allces.)

To be Naib Subedar: Clerk (GD/SD)

Hav Swapan Kumar Tripathi (6467357F now JC-642798L) 19 Dec 2002\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2002 without effect on pay & allces.)

Hav Hari Gopal (6377137W now JC-642633M) 01 Jul 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 99 without effect on pay & allces.)

Hav Ram Giri Goswamy (6381785W now JC-642695M) 24 Dec 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 99 without effect on pay & allces.)

Hav Prasanta Kumar Dash (6381812P now JC-642634P) 01 Sep 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2000 without effect on pay & allces.)

Hav Ajay Kumar Rath (6381853Y now JC-642696P) 10 Nov 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2000 without effect on pay & allces.)

Hav Ajay Kumar Dash (6381854F now JC-642635X) 05 Sep 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2000 without effect on pay & allces.)

Hav Sivarajan K V (6381897W now JC-642698A) 01 Jun. 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2001 without effect on pay & allces.)

Hav Ram Niwas Agnihotri (6382123A now JC-642697X) 20 Oct 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2000 without effect on pay & allces.)

Hav M Deva Rajan (6650054A now JC-642770L) 01 Aug 2002\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2001 without effect on pay & allces.)

Hav Punniyamurthy R (6373577M now JC-642484K) 01 Oct 2000.

Hav Mohd Ibrar Khan (13870762M now JC-642485M) 01 Oct 2000.

Hav Satwinder Singh (6650083P now JC-642486P) 01 Oct 2000.

Hav Hira Chand (6650082M now JC-642515Y) 01 Nov 2000.

Hav Surendra Prasad (6649667N now JC-642825K) 20 Feb 2003\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2002 without effect on pay & allces.)

Hav Indrajit Prasad (6650084X now JC-642516F) 01 Nov 2000.

Hav Ram Niwas (6650086H now JC-642517K) 16 Apr 2001@.

Hav Hari Ram Yadav (6650088N now JC-642518M) 16 Apr 01@.

(@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces.)

Hav B P Tiwari (6468034L now JC-642636A) 01 Jul 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Mar 2001 without effect on pay & allces.)

Hav Gopala Krishnan PT (13875939Y now JC-642519P) 09 Feb 2001\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces.)

Hav Suryavanshi Pandit Hariba (6650091N now JC-642520K) 01 Dec 2000.

Hav Sukh Man Rai (6650092W now JC-642521M) 16 Apr 2001\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces.)

Hav Manogobinda Das (6650093Y now JC-642522P) 16 Apr 2001\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2001 without effect on pay and allces.)

Hav Raj Kishore Pattanaik (6650094F now JC-642523X) 01 Jan 2001.

Hav Hemanta Kumar Das (6650097P now JC-642524A) 01 Jan 2001.

Hav Pravakar Mohanta 6650099A now JC-642525H) 03 Mar 2001\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces.)

Hav S K Subudhi (6650100K now JC-642526L) 01 Feb 2001.

Hav Santosh Kumar (6650105H now JC-642527N) 01 Feb 2001.

Hav Murli Prasad (6650107N now JC-642528W) 01 Feb 2001.

Hav Sugathan K (6650110N now JC-642529Y) 12 Feb 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001 without effect on pay & allces.)

Hav Padam Singh (6650112Y now JC-642530N) 09 Feb 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001 without effect on pay & allces.)

Hav P C Subba Rao (13874375P now JC-642531W) 06 Feb 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001 without effect on pay & allces.)

Hav Narayan Rao (13875301M now JC-642532Y) 28 Mar 2001\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces.)

Hav Ram Bilas (6469712M now JC-642533F) 01 Feb 2001.

Hav Bishnu Kumar (13870765A now JC-642534K) 01 Feb 2001.

Hav Anil Kumar Dass (6650108W now JC-642535M) 01 Feb 2001.

Hav Sukhbir Singh (6650125W now JC-642536P) 01 Mar 2001.

Hav M D Nurul Islam (6650134X now JC-642758K) 27 Feb 2002\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2001 without effect on pay & allces.)

Hav Ganga Prasad Yadav (6650135A now JC-642537X) 16 Apr 2001\*.

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2001 without effect on pay & allces.)

Hav Sakti Pada Banerjee (6650136H now JC-642538A) 08 Mar 2001\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2001 without effect on pay and allces.)

Hav Umesh Singh (6650147P now JC-642539H) 01 Mar 2001.

Hav Sukumaran P (6375248P now JC-642540X) 02 Mar 2001\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2001 without effect on pay and allces.)

#### REGULAR ARMY

##### ARMY POSTAL SERVICE CORPS

##### WARRANT OFFICER TO BE NB SUB/CLK (POSTAL)

Satyanarayana Pareek (8372618L now JC-83442I-W) 28 Jan 03.

Prabin Singh (8373778Y now JC-834423-F) 28 Dec 02.

Manoj Kumar Pandey (8371175H now JC-834424-K) 21 Apr 03.

Chandra Bhan Namdeo (8371261N now JC-834425-M) 17 Mar 03.

Uma Shankar Verma (8371458K now JC-834426-P) 08 Apr 03.

Ratan Singh Rajput (8371847K now JC-834427-X) 06 Mar 03.

Lakhi Chand Sahu (8372333Y now JC-834428-A) 17 Apr 03.

Durga Das (8372425L now JC-834429-H) 20 Mar 03.

Vijay Kumar (8371532A now JC-834430-X) 05 May 03.

Jitendra Kumar Thakur (8373562W now JC-834431-A) 12 Mar 03.

P. Vetri Kumar (8373578F now JC-834432-H) 30 Mar 03.

Krishnaraja Vittal Bhat (8373591L now JC-834433-L) 20 Apr 03.

Manish Kumar Saxena (8373593W now JC-834434-N) 21 Mar 03.

Ashok Kumar (8373859X now JC-834435-W) 13 Mar 03.

Ravi Mane (8373875P now JC-834436-X) 16 Apr 03.

Udai Pal Singh Sengar (8373924M now JC-834437-F) 24 Mar 03.

Baswant Pawar (8374011X now JC-834438-K) 12 Mar 03.

Ashok Hajeri (8373017M now JC-834439-M) 28 Apr 03.

Granted Seniority in the rank of Nb Sub (Clk) for Ser 01 wef 26 Jul 02, Ser No. 02 wef 01 Dec 02 Ser No. 03 to 17 wef 14 Dec 02 and Ser No. 18 wef 13 Feb 03 without effect on their pay and allowances.

R. Chaturvedi  
Under Secy.

No. 504 dated 01 Aug 03. The President is pleased to make the following promotion (SSC) under AI 15/79 as amended vide 5/96 :-

#### REGULAR ARMY

##### ARMY DENTAL CORPS

##### SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi Substantives Major

DS-11973W (Ms) Monica Khanna 25-10-2002.

DS-11977M (Ms) Nidhi Malhan 11-02-2003.

DS-11996X (Ms) Arunima Biswas 15-03-2003.

DS-11984H (Ms) Neeru Kanwar 28-03-2003.

J L Sharma  
Lt Gen  
DGDS

No. 505 dated 05 August, 03. The President is pleased to make the promotion of the under mentioned AMC officers with effect from the date mentioned against them :-

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Uttara Aiyer (MR-07589X) (MS-13296-H), AMC 01 Jan 2002.

VIJAY KUMAR (MR-07837-H) (MS-13250-A), AMC-11-05-2001. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 01-12-2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Ashish Bahal (MR-07083Y) AMC, 20 Jan 2003.

Pranati Swain (MR-07095N) AMC, 20 Jan 2003.

Anindita Chatterjee (MR-07107X) AMC, 20 Jan 2003.

Sameer Kumar (MR-07020W) AMC, 30 Jun 2002.

Rajesh Uddandam (MR-07116Y) AMC, 20 Jan 2003.

Aman Preet (MR-07114N), AMC, 20 Jan 2003.

Sanjay Kumar Dutt (MR-07110-X), AMC, 20 Jan 2003.

Ganeshmurthy Ramamurthy Vashista (MS-13610-L), (MR-07832-K), AMC, 04 Feb 2003.

Tillak Bahadur Khattri (MR-07914-M), (MS-13839-K), AMC, 23 Dec 2001.

Shailendra Kumar Chaudhary (MR-07785-X) (MS-13640-H), AMC, 02 Feb 2003.

Mohan Bhikaji Mahale (MS-13374-P) (MR-07836-A), AMC, 03 Feb 2003.

## Major to be Lt Col

R Setlur (MR-05626-F), AMC, 01 Jun 2001.  
 V R Sinha (MR-05909-H), AMC, 01 Dec 2002.  
 R M Joshi (MR-05930-L), AMC, 01 Dec 2002.  
 R S Rawal (MR-05937-P), AMC, 01 Dec 2002.  
 (Mrs) Aruna Menon (MR-06502-Y), AMC, 24 Mar 2003.  
 (Mrs) Anu Lal (MR-07144-L), AMC, 09 Mar 2003.

## To be Capt

Sheetal Raina (MR-07700-W), AMC, 04 Mar 2003.  
 Ravi Patcharu (MR-07751-K), AMC, 04 Mar 2003.  
 Nishant Pathiak (MR-07755-A), AMC, 04 Mar 2003.  
 Vishan Dev Singh Jamwal (MR-07731-W), AMC, 04 Mar 2003.  
 Jafar Husain (MR-07733-F), AMC, 04 Mar 2003.  
 Sourabh Bhutani (MR-07748-K), AMC, 04 Mar 2003.  
 Omesh Nath (MR-07752-M), AMC, 04 Mar 2003.  
 Gobind Ji Thakur (MR-07699-M), AMC, 04 Mar 2003.  
 Alok Kumar (MR-07701-Y), AMC, 04 Mar 2003.  
 Rahul Sinha (MR-07705-P), AMC, 04 Mar 2003.  
 Sanjeev Khera (MR-07712-L), AMC, 04 Mar 2003.  
 Shiv Shankar Sharma (MR-07728-W), AMC, 04 Mar 2003.  
 Aditya Abhishek Jha (MR-07744-N), AMC, 04 Mar 2003.

## Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Maneel Patel (MS-13418-F) (MR-07819-A) (75659), AMC, 06 Feb 2003.  
 R Panicker (MR-05904-K) (75450), AMC, 01 Dec 2002.  
 R Pant (MR-05932-W) (75453), AMC, 01 Dec 2002.  
 S Muraleekrishnan (MR-06176-F) (75477), AMC, 09 Mar 2003.  
 K Adhikari (MR-06477-L) (75479), AMC, 16 Mar 2003.  
 V V Prabhkar (MR-07146-W), (75480), AMC, 09 Apr 2003.  
 Amit Sethi (MR-07790-H), (75680), AMC, 02 Mar 2003.

## To be Surg Lt Cdr

Kamal Mishra (MS-13487-X) (MR-07816-M) (75663), AMC, 05 Jan 2003.

## To be Surg Lt

Avinash Singh Parihar (MR-07666-F) (75768-Z), AMC, 01 Dec 2002.

## Sqn Ldr to be Wg Cdr

M Sharma (MR-05984-M) (19983), AMC, 01 Dec 2002.  
 A K Handa (MR-05986-X) (19985), AMC, 01 Dec 2002.  
 (Miss) S Mohlah (MR-05995-Y) (20107), AMC, 28 Dec 2002.

M. SRIVASTAVA  
 Brig. Dy. DOAFMS(P)

No. 506, dated 06 August 2003—The President is pleased to make the following promotions :—

## Regular Army

## Permanent Commission

## Capt to be Maj

IC-51546 P Kandasamy, Arty, 19 Dec 2002.

## Sl. No. Name and Arm

3956 Khadge VP, SL TOT  
 3957 VS Pabla, SL TOT  
 3959 PS Natrajan, SL SA  
 3960 Mohammad Ali CM, SL ARCH  
 3961 Kirpal Singh, SL APTC  
 3962 Sawinder Singh, SL TOT  
 3964 R Jeyachandran, SL SA  
 3965 NS Sambial, SL RO  
 3966 RN Yadav, SL QM  
 3967 GS Saini, SL TOT  
 3968 CT Raveendran, SL CIPH  
 3969 BK Pandit, SL RO  
 3971 S Sawant, SL B/R  
 3972 A Mathialagan, SL E/M  
 3973 RN Dawn, SL CIPH  
 3974 Sat Pal Singh, SL APTC  
 3975 Baldev Singh, SL RO  
 3976 Hari Singh, SL RO  
 3977 S Roy, SL CIPH  
 3978 H Shankaradhas, SL RO  
 3979 SS Panigrahi, SL ER  
 3980 Murugesan S, SL CIPH  
 3982 Brahm Pal Singh, SL CIPH  
 3983 AS Chauhan, SL CIPH  
 3984 H Katar, SL B/R



3985 Gajjan Singh, SL RO  
 3986 RN Yadav, SL AE  
 3987 Jasbir Singh, SL RO  
 3988 TR Arya, SL BSO  
 3989 Jaswinder Singh, SL RO  
 3990 Yashpal Singh, SL RO  
 3991 RS Parmar, SL RO  
 3992 BN Sharma, SL QM  
 3993 RK Chhetry, SL QM  
 3994 AAR Rao, RO  
 3995 Jaya Rajan V., SL TEO  
 3996 RP Sharma, SL ER  
 3999 Gurmail Singh, SL E/M  
 4000 SP Changotra, SL RO  
 4001 RD Vania, SL TEO  
 4002 K Chander, SL QM  
 4004 Dalip Singh, SL E/M  
 4005 Ashok Kumar, SL ER  
 4006 Balwant Singh, SL QM  
 4007 Laxmi Narayan, SL QM

13 May 2003.

IC-43017 SS Dalal, Inf  
 IC-44760 Girish Kandpal, EME  
 IC-45559 Nirmal Singh, Engrs  
 IC-46418 SP Rao, EME  
 IC-46666 Rajesh Kumar, Sigs  
 IC-46707 H Kumar, EME  
 IC-46729 HS Aulakh, Inf  
 IC-46810 D Diaz, Arty  
 IC-46877 ZM Anwer, Arty  
 IC-48185 OP Gathwala, Inf  
 IC-48408 S Bahadur KC, Inf  
 IC-48869 SP Singh, EME  
 IC-49269 Narendra Singh, EMP  
 IC-50136 Niket Suda, Engrs  
 IC-50185 Neeraj Mehta, EME  
 IC-50411 VS Rathore, AD Arty

IC-50429 Naresh Kumar, Arty  
 IC-50601 M Gaffar, AC  
 IC-50612 RS Sekhwat, Inf  
 IC-50639 PA Ahlawat, AOC  
 IC-50641 S Budhwar, Sigs  
 IC-50824 RK Sharma, EME  
 IC-50889 R Rohit, Arty  
 IC-50932 A Devgan, Inf  
 IC-50966 RC Shukla, Sigs  
 IC-50986 S Kumar, Engrs  
 IC-51028 Tejpal Singh, Sigs  
 IC-51032 S Sharma, EME  
 IC-51043 H Vardhan, Int  
 IC-51046 Ravinder Singh, Inf  
 IC-51051 Ram Karan, AC  
 IC-51070 RK Shrivastava, AOC  
 IC-51078 A Thakur, Engrs  
 IC-51919 AK Singh, EME  
 IC-52276 RS Bhasin, Engrs  
 IC-52300 SB Chetty, EME  
 IC-52311 SK Uniyal, Sigs  
 IC-52333 SR Talwar, Engrs  
 IC-52689 VTK Raju, EME

16 Dec 2001 (But for pay &  
 allowances wef 16 Dec 2002).

IC-46926 Virender Singh, Inf  
 IC-46930 M Oommen, Inf  
 IC-46937 PA Newton, Inf  
 IC-46951 Sandeep Singh, ASC  
 IC-46965 D Verghese, Engrs

22 Apr 2002.

IC-49757 UV Ulaganathan, Engrs

16 Dec 2000 (But for Pay &  
 allowances wef 16 Dec 2002)

IC-51133 V Upadhyay, Engrs  
 IC-51194 RP Nain, Int  
 IC-51265 VK Pant, AOC  
 IC-51293 Sandeep Sharma, EME  
 IC-51299 Somnath Gupta, Arty  
 IC-51322 M Rauthan, Inf  
 IC-51351 MP Vijayan, Inf

IC-51366 NS Bhasin, Inf  
 IC-51380 AK Pathak, EME  
 IC-51389 SM Mishra, Sigs  
 IC-51392 DS Parmar, Arty  
 IC-51393 S Ghosh, Inf

13 Jun 2002.

IC-51474 S Sheoran, Inf  
 IC-51510 Som Raj, AOC  
 IC-51559 PS Dasauni, Inf  
 IC-51572 N Kapoor, Sigs  
 IC-51582 RK Bati, Inf  
 IC-51591 G Singhal, EME  
 IC-51603 PS Dhaliwal, Arty  
 IC-51614 Kulbir Singh, Inf  
 IC-51631 NS Mahara, Sigs  
 IC-51644 A Kumar, EME  
 IC-51656 SK Narayan, Arty  
 IC-51667 G Devgan, Arty  
 IC-51682 VR Chauhan, Inf  
 IC-51691 K Ramnarayan, Sigs  
 IC-51702 Anand Lal, Arty  
 IC-51722 S Kandari, ASC  
 IC-51730 AS Gautam, Inf  
 IC-51734 MM Damle, Sigs  
 IC-51752 R Sial, EME  
 IC-51765 VKS Tomer, Sigs  
 IC-51770 A Ludra, AC  
 IC-51782 P Warikoo, ASC  
 IC-51783 SA Naidu, Inf  
 IC-51790 R Arora, EME  
 IC-51801 Surendra Singh Shekhawat, Inf  
 IC-51804 PR Narayan, AD Arty  
 IC-51809 DR Ray, Arty  
 IC-51821 A Kothiyal, Inf  
 IC-51822 G Mishra, EME  
 IC-51832 AD Mathur, Sigs  
 IC-51856 V Luthra, AC

IC-51858 BS Vasant, Engrs  
 IC-51860 Govindan R, Arty  
 IC-51861 R Sharma, Sigs  
 IC-51871 YV Gopal, EME  
 IC-51875 LM Sharma, Engrs  
 IC-51911 BN Rai, AEC

19 Dec 2002.

IC-53072 S Gopikrishnan, Engrs  
 IC-53081 TP Singh, EME  
 IC-53087 HK Dave, Engrs  
 IC-53092 Manoj Kumar, AV, EME  
 IC-53093 Randeep Singh, Engrs  
 IC-53110 P Gairola, Engrs  
 IC-53113 Suresh S, EME

14 Jun 2002

IC-53463 N Gogai, Sigs  
 IC-53473 JR Manerikar, EME  
 IC-53477 Mahesh Yadav, Engrs  
 IC-53479 J Kumar, Engrs  
 IC-53482 LC Dagar, EME  
 IC-53488 Suresh GR, Sigs

20 Dec 2002

IC-54612 J Bali, Inf  
 IC-54616 GVB Reddy, Sigs  
 IC-54620 AV Shahi, AC  
 IC-54623 R Sridharan, Engrs  
 IC-54649 M Marwah, Arty  
 IC-54662 M Kumar, AD Arty  
 IC-54667 S Kumar, EME  
 IC-54673 S Dhondiyal, AOC  
 IC-54675 Manoj Gaur, Engrs  
 IC-54684 S Singh, Engrs  
 IC-54685 A Puri, Inf  
 IC-54696 A Handique, Engrs  
 IC-54701 S Vasudevan, AC  
 IC-54729 S Tejpal, AD Arty  
 IC-54738 B Joshi, ASC

06 Nov 2002.

K S VERMA  
 Jt Dir, MS-8C

No. 507, dated 06 August, 2003.—The President is pleased to make the following promotion :—

**Regular Army**

**Permanent Commission**

**Lt Col to be substantive Col**

D Pal IC-31668 Inf, 01 Dec 2000.  
 GR Tatarwal IC-31675 Inf, 01 Dec 2000.  
 Rup Jyoti Sarma IC-31694 Inf, 01 Dec 2000.  
 S Krishnan IC-31696 Inf, 01 Dec 2000.  
 D Sebastian IC-31753 Inf, 01 Dec 2000.  
 AD Gardner IC-31757 Inf, 01 Dec 2000.  
 AV Balakrishnan IC-31758 AOC, 01 Dec 2000.  
 M Singh IC-31762 Inf, 01 Dec 2000.  
 ST Muthuswamy IC-31767 Int, 01 Dec 2000.  
 VK Sehgal IC-31776 AOC, 01 Dec 2000.  
 R Sexena IC-31780 Arty, 01 Dec 2000.  
 SS Sirohi IC-31781 AC, 01 Dec 2000.  
 B Chaudhuri IC-31785 Arty, 01 Dec 2000.  
 HMR Chande IC-31791 Arty, 01 Dec 2000.  
 AS Rawat IC-31793 AOC, 01 Dec 2000.  
 RD Mehta IC-31794 Int, 01 Dec 2000.  
 P Vivekanandan IC-31795 AD Arty, 01 Dec 2000.  
 KS Kumbar IC-31797 Inf, 01 Dec 2000.  
 KN Nair IC-31804 Mech Inf, 01 Dec 2000.  
 S Gulshan IC-31805 Engrs, 01 Dec 2000.  
 VY Gidh IC-31809 Inf, 01 Dec 2000.  
 MM Mitra IC-31811 Inf, 01 Dec 2000.  
 SK Sarkar IC-31817 Inf, 01 Dec 2000.  
 RS Raghu IC-31825 Arty, 01 Dec 2000.  
 JS Nandi IC-31830 AD Arty, 01 Dec 2000.  
 DP Mamgain IC-31838 AC, 01 Dec 2000.  
 SK Singh IC-31848 Inf, 01 Dec 2000.  
 M Bhalla IC-31849 Inf, 01 Dec 2000.  
 AK Mehta IC-31852 Mech Inf, 01 Dec 2000.  
 S Mishra IC-31854 Arty, 01 Dec 2000.  
 PC Sen IC-31864 EME, 01 Dec 2000.  
 MD Moorthy IC-31867 Arty, 01 Dec 2000.  
 RK Gosain IC-31868 Inf, 01 Dec 2000.  
 VD Potty IC-31879 Arty, 01 Dec 2000.

R Mannali IC-31880 AC, 01 Dec 2000.  
 PKH Shamanna IC-31894 Arty, 01 Dec 2000.  
 AK Verma IC-31895 AD Arty, 01 Dec 2000.  
 S Singh IC-31896 AC, 01 Dec 2000.  
 PK Tikoo IC-31911 MF, 01 Dec 2000.  
 KK Tiku IC-35387 Engrs, 01 Dec 2000.  
 S Kumar IC-35389 EME, 01 Dec 2000.  
 VK Dutta IC-35390 Engrs, 01 Dec 2000.  
 MA Prasad IC-35391 EME, 01 Dec 2000.  
 SB Jeathmalbhai IC-35395 Sigs, 01 Dec 2000.  
 S. Mukherje IC-35396 EME, 01 Dec 2000.  
 CBL Sahel IC-35401 Engrs, 01 Dec 2000.  
 Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)  
 IC-39741 KR Suraraj Arty, 13 Jun 2001.

**S S SINHA**  
 Dy. Director  
 DAMS—8A

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
 ORGANISATION**

No. 508, dated 05th August 03.—The President is pleased to make the following promotion :—

Shri Anup Kumar Chatterjee, Sc 'E', Office of CCR&D (Tech), DRDO HQ to be Sc 'F' in the Defence Research & Development Service with effect from 01 July 2003 in the Pay Scale of Rs. 16400-450-20000 in the same Directorate.

Shri B. K. Anand, Sc 'E' of DBFA, DRDO HQ to be Sc 'F' in the Defence Research & Development Service with effect from 01 July 2003 in the Pay Scale of Rs. 16400-450-20000 in the same Directorate.

Shri V. P. Goel, Sc 'D' of DCS, DRDO HQ to be Sc 'E' in the Defence Research & Development Service with effect from 01 July 2003 in the Pay Scale of Rs 14300-400-18300 in the same Directorate.

Shri D. K. Gupta, Sc 'D' of CCER&D (North) to be Sc 'E' in the Defence Research & Development Service with effect from 01 July 2003 in the Pay Scale of Rs. 14300-400-18300 in the same establishment.

Dr. Anil Kumar, Sc 'C' of Dte of P&C, DRDO HQ to be Sc 'D' in the Defence Research & Development Service with effect from 01 July 2003 in the Pay Scale of Rs. 12000-375-16500 in the same Directorate.

Shri Gurbaksh Singh, Sc 'C' of Dte of Combat Vehicles, DRDO HQ to be Sc 'D' in the Defence Research & Development Service with effect from 01 July 2003 in the Pay Scale of Rs. 12000-375-16500 in the same Directorate.

Shri P. P. Sethi, Sc 'C' of DCS, DRDO HQ to be Sc 'D' in the Defence Research & Development Service with effect from 1.10.2003 in the Pay Scale of Rs. 12000-375-16500 in Directorate.

J. K. KHADWAL  
Jt. Director (Pers)

#### DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES

No. 509, dated 04th August 03.—The President is pleased to make the following placements:—

Shri GN Khadanga, SQAQ to be placed as Addl. Controller at CQA (Met), Ichapur w.e.f. 04.10.02 (F/N).

Shri RP Shahi, PScO (NFSG) to be placed as SQAQ at SQAQ (Met), Ichapur w.e.f. 30.09.02 (F/N).

Shri B Jayathcertha, PScO (NFSG) to be placed as Joint Director at HQ DQA (L), New Delhi w.e.f. 29.05.03 (F/N).

Shri Vijay Kumar, PScO (NFSG) to be placed as SQAQ at SQAQ (GS), Mumbai w.e.f. 28.04.03 (F/N).

Shri BP Singh, Joint Director to be placed as Addl. Director at HQ DQA (V), New Delhi w.e.f. 19.05.03 (F/N).

Shri MS Soni, PScO (NFSG) to be placed as Joint Controller at CQA (HV), Avadi w.e.f. 19.05.03 (F/N).

Shri KC Garg, PScO (NFSG) to be placed as Joint Director at HQ DQA (V), New Delhi w.e.f. 04.06.03 (F/N).

Shri Satpal Singh, Joint Director to be placed as Addl. Director at HQ DQA (S), New Delhi w.e.f. 18.06.03 (F/N).

Shri SS Rao, Joint Controller to be placed as Controller at CQA (M), Kanpur w.e.f. 19.06.03 (F/N).

Shri AA Khan, PScO (NFSG) to be placed as Joint Director at HQ DQA (S), New Delhi w.e.f. 23.06.03 (F/N).

S. N. TRIPATHI  
Deputy Secy.

#### AIR BRANCH

No. 510, dated 06th August 03.—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

#### INDIAN AIR FORCE

#### AE BRANCH

To be Substantive Wing Commanders (Select)

HK Bhatnagar P/R 31.01.01 (15809), AE (L)—01.06.99

(His name will appear between Wg Cdrs KK Dangda (15622) AE (L) and SC Gupta (15822) AE (L) in the Combined Gradation list).

RK Singh P/R 31.08.00 (16157), AE (L)—01.06.99

(His name will appear below Wg Cdr HL Saha (16172) AE (M) in the Combined Gradation list).

DN Tripathi (15958), AE (L)—01.06.99

(His Name will appear between Wg Cdrs M Upender (16500) AE (L) and IP Sharma (16173) AE (M) in the Combined Gradation list).

MK Bapu (16307), AE (L)—01.10.99

(His name will appear above Wg Cdr T Sankaran (16316) AE (L) in the Combined Gradation list).

TN Ajithkumar (16309), AE (L)—01.01.00

(His name will appear below Wg Cdr Anil Kumar (16308) AE (L) in the Combined Gradation list).

P Yadav (16320), AE (L)—01.01.00

(His name will appear above Wg Cdr RP Sinha (16312) AE (L) in the Combined Gradation list).

SR Sharma (16310), AE (L)—11.07.01/01.10.99 (NS)

(His name will appear below Wg Cdr RS Shera (16315) AE (L) in the Combined Gradation list).

S. K. SHUKLA  
Dy. Director of Personnel (Officer 2(B))

#### (ARMY BRANCH)

No. 511, dated 05th August 03.—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 06.12.2000 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Capt (On Prob)

Vijay Kumar (MS-13250-A) (MR-07837-H), AMC 11.11.1997 with seniority for pay and promotion wef 11.05.1997 (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 02.06.2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish their Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 24.09.2001 and to grant their permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76, as amended:—

To be Capt (On Prob)

Ganeshmurthy Ramamurthy Vashista (MS-13610-L) (MR-07832-K), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 04.02.1999. (MoD Notification published in the Gazette of India dated 08.09.2001 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Bahadur Khattri (MS-13839-K) (MR-07914-M), AMC 23.06.1998 with seniority for pay and promotion wef

23.12.1997 (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 09.03.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Surg Lt (On Probation)

Kamal Mishra (MS-13487-X), (MR-07816-M) (75663), AMC with seniority for pay and promotion w.e.f. 05.01.1999 (MoD Notification published in the Gazette of India dated 05.02.2000 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 04.12.2001 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI-74/76 as amended:—

To be Capt (On Probation)

Shailendra Kumar Chaudhary (MS-13640-H) (MR-07785-X), AMC—02.08.1999 with seniority for pay and promotion wef 02.02.1999 (This includes 06 months of antedate of seniority for Hospital Appointment which will count for pension not for gratuity). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 04.01.2003 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Surg Lt (On Prob)

Surg Sub Lt. Maneel Patel (MS-13418-F) (MR-07819-A) (75659), AMC—18.12.1998. (On completion of Internship Training promoted to the rank of Surg Lt. w.e.f. 06.02.1999). (MoD Notification published in the Gazette of India dated 11.09.1999 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

M. SRIVASTAVA

Brig.

Dy. DGAFMS (P)

No. 512, dated 31st July 03.—Consequent on his appointment as Member, UPSC, Shri Subir Dutta IAS (WB: 67), Secretary, Department of Defence, Ministry of Defence is deemed to have retired from the Indian Administrative Service w.e.f. 04.07.2003 (AN).

The President is pleased to retire Shri Sukumar Mandal, CSS, Deputy Secretary, Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.05.2003 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SARASWATHY

Under Secy.

#### ARMY BRANCH

No. 513, Dated 104th August 03.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Territorial Army Service:—

#### TERRITORIAL ARMY

#### TERRITORIAL COMMISSION

Maj (Mrs) Sakti Chakraborty, TA(N)-1006 MNS (TA)—30 Apr 03

Maj (Mrs) Pratibha Dey, TA(N)-1017 MNS (TA)—31 Jan 03

Maj (Mrs) Phul Rani Sarmah, TA(N)-1018 MNS (TA)—31 Jan 03

Maj (Mrs) KL Moulik TA (N)-1029 MNS (TA)—30 Jun 02

Maj (Mrs) R Bhattacharjee TA (N)-1065 MNS (TA)—30 Nov 02

M. L. SHARMA  
Under Secy.

No. 514, dated 05th August 03.—The President is pleased to retire the under mentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 May 2002 (AN):—

#### (REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION)

IC-19454 Col Nabin Srivastava, Sigs

IC-19879 Col Narendra Talwar, Sigs, VSM

IC-23392 Lt Col Sajan Singh, 1GR

IC-24187 Col Karan Singh Rathore, AC

IC-24340 Lt Col (TS) Chohan Krisan Kumar, Arty

IC-25666 Lt Col (TS) Berera Mohan Machaya, Mech Inf

IC-25760 Lt Col Arvind Kumar Sharma, EME

IC-28526 Lt Col Kailash Chandra, Kumaon

IC-28859 Col Joginder Singh Ghura, 5 GR

IC-28873 Lt Col Parvinder Singh Bhatia, EME

IC-28934 Lt Col Param Pal Singh Dhillon, Rajput

IC-29251 Col Lal Singh, AD Arty

IC-29533 Lt Col Varadarajalu Radapuram Venkatarama, Arty

IC-30034 Col Shamsheer Singh, Madras

IC-30304 Col Panchana Ramachandran, Sigs

IC-30415 Lt Col (TS) Randhir Sagar, AOC

IC-30506 Lt Col (TS) Ram Bhagat Goyal, Sigs

IC-32191 Col Raj Kumar Kapoor, Sigs

IC-32210 Lt Col (TS) Suryakant Dnyanoba Patil, Maratha Li

IC-32345 Col Umesh Chawla, Raj Rif

IC-32540 Col Dharmalinga Kanagasabapathy, Mech Inf

IC-32600 Lt Col (TS) Kunjira Bopiya Sadashiva, 3 GR

IC-32783 Lt Col (TS) Satish Chander Sood, Engrs

IC-32788 Lt Col (TS) Tarsem Lal Sobat, ASC

IC-32797 Lt Col Mohinder Singh, Arty

IC-33371 Lt Col (TS) Sukhwinder Singh Dhillon, Arty

IC-33415 Col Chemudupoti Vishwaniohan, Sigs

IC-33564 Col Srirangachari Srinivasan, AOC  
 IC-33593 Lt Col (TS) Raj Kumar Sharma, Punjab  
 IC-33733 Lt Col Jagir Singh Chaudhary, Arty  
 IC-33740 Lt Col (TS) Erasserri Puthanveed Balachandran,  
 Jak LI

IC-34033 Lt Col Baban Narayan Thorat, Arty  
 IC-34090 Lt Col (TS) Damodar Gurung, Jak LI  
 SL-2512 Lt Col Ram Prakash Dahiya, Sig  
 SL-2566 Maj Kishan Singh Janjhua, QM  
 SL-2701 Maj Vazekattu Joseph, Engr  
 SL-2791 Maj Nafe Singh Dahiya, RO  
 SL-2833 Maj Pandurang Naik, Engr  
 SL-2850 Maj Ved Prakash, Sig  
 SL-2914 Maj Sadasivan, Nair MK, RO  
 SL-2939 Maj A Thambuswamy, Engr  
 SL-2988 Maj Vakkaligara Veeranna Appaswamy, AOC  
 RC-0511 Capt Harchand Ram, Arty  
 RC-0608 Capt Satish Kumar Gurung, Inf

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Jun 2002 (AN):—

(REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION)

IC-23056 Col Som Vrat Joshi, Kumaon  
 IC-23191 Col Daleep Yadav, Arty  
 IC-23199 Col Mahendra Singh, Mahar  
 IC-23212 Lt Col (TS) Paramjit Iqbal Kultaran Singh, AOC  
 IC-23757 Lt Col (TS) Balbir Singh Kahlon, Punjab  
 IC-23938 Lt Col (TS) Sanjoy Brata Roy, AD Arty  
 IC-24227 Lt Col (TS) Vijay Kumar Vohra, EME  
 IC-24281 Lt Col (TS) Virendra Singh, AC  
 IC-24537 Lt Col (TS) Charan Datt Pant, AEC  
 IC-24814 Lt Col (TS) Yashbir Singh, Sigs  
 IC-25619 Lt Col (TS) Parvinder Kumar, Maratha LI  
 IC-25659 Lt Col (TS) Kuppurao Harish Nowlay, Engrs  
 IC-25721 Lt Col (TS) Narendra Singh, Guards  
 IC-27089 Lt Col Shanti Puran Khalkho, Rajput  
 IC-27136 Lt Col (TS) Amolak Singh, ASC  
 IC-27903 Lt Col Avtar Singh Aujla, Sigs  
 IC-27934 Col Satyendra Kumar Jain, Sigs  
 IC-28304 Col Shamsheer Singh, Arty  
 IC-29219 Lt Col (TS) Yudhbir Singh, Engrs  
 IC-29385 Lt Col Balminder Singh Chahal, Sikh LI  
 IC-29399 Col Vijay Kumar, Punjab  
 IC-29455 Lt Col Virender Singh Bist, Engrs

IC-29770 Lt Col Gajinder Singh Bedi, Arty  
 IC-30242 Maj Prithvi Singh Lohra, EME  
 IC-31588 Col Naresh Kumar, Engrs  
 IC-32084 Lt Col (TS) Davinder Singh Pathania, Mech  
 Inf

IC-32086 Col Bhupinder Singh Ahuja, Pnr Corps  
 IC-32157 Lt Col (TS) Harjinder Singh, Madras  
 IC-32248 Col Satpal Singh, Arty  
 IC-32403 Lt Col (TS) Jas Karan Singh Sekhon, Sikh  
 IC-33538 Col K Ram Singh Ratkuria, AC  
 IC-33764 Lt Col Prem Chandra Mamgain, AOC  
 IC-34224 Lt Col (TS) Binode Bihari Sinha, Arty  
 IC-36198 Col Balkar Singh, EME  
 SL-2302 Lt Col Govind Prasad Barthwal, RO  
 SL-2557 Maj Basant Kumar Rana, QM  
 SL-2712 Maj Prabhakaran Chalil, Sig  
 SL-2763 Maj Banwari Lal Yadava, RO  
 SL-2864 Maj Sant Bakhas Singh, Sig  
 SL-3128 Maj JS Cheema, RO  
 SL-3278 Maj Ravi Singh Parmar, EME  
 SL-3297 Maj Jambuluri Venkata Reddy, EME  
 SL-3377 Maj Lekhak Narayan Datt, Engrs  
 RC-0571 Capt Pushpa Nath, EME  
 RC-0631 Capt Bokinala John, Sigs

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Jul 2002 (AN):—

(REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION)

IC-23156 Col Shashi Kiran Maini, Arty  
 IC-23335 Lt Col Satish Kumar, Guards  
 IC-23348 Lt Col Joseph Victor Mascarenhas, Maratha LI  
 IC-23446 Lt Col Prem Prakash Mittal, Arty  
 IC-23668 Lt Col Balram Warya, Engrs  
 IC-23919 Lt Col (TS) Victor Duraisami, Arty  
 IC-24041 Lt Col Gajendra Singh Shekhawat, I GR  
 IC-24072 Col Pallabh Kumar Das Gupta, Engrs  
 IC-24239 Lt Col (TS) Behere Ramesh Dattaraya, Arty  
 IC-24542 Col Arjun Pal Chawla, Engrs  
 IC-24766 Col Kulwant Singh, Engrs  
 IC-25363 Col Bijay Kant Jha, AEC  
 IC-25767 Lt Col Mahendra Singh, Sigs  
 IC-25770 Lt Col Tek Chand Aghi, AEC  
 IC-25778 Lt Col Pradeep Kumar Gupta, Engrs  
 IC-25850 Col Laxman Singh Rana, Assam

IC-27160 Lt Col (TS) Viresh Ohri, Engrs  
 IC-27172 Lt Col Prem Shanker Tripathi, Sigs  
 IC-27768 Lt Col (TS) Surjit Singh, ASC  
 IC-27891 Col Mohan Dass Menon, EME  
 IC-28931 Lt Col Indraj Singh, Raj Rif  
 IC-28990 Col Syed Yasin, Engrs  
 IC-29598 Lt Col (TS) Anil Kumar Behl, Guards  
 IC-29908 Col Yogendra Pal Singh, Sigs  
 IC-30640 Col Brahma Datta Tyagi, SM, Sigs  
 IC-31441 Lt Col Suraj Bhan Tiwari, ASC  
 IC-31796 Lt Col (TS) Kartik Chandra, ASC  
 IC-32178 Lt Col Rakesh Chandra Kukrety, Rajput  
 IC-32263 Lt Col Ram Krishan, Arty  
 IC-32645 Lt Col (TS) Abhijit Kumar Verma, Engrs  
 IC-32773 Lt Col (TS) Pandher Darshan Singh, Arty  
 IC-32961 Col Ajit Kumar Dutta, Sigs  
 IC-32983 Col Jammalamadaka Radha Krishna Murty, Sigs  
 IC-33190 Lt Col (TS) Elumalai Arun Mani, Dogra  
 IC-33267 Col Om Prakash Nehra, Madras  
 IC-33497 Lt Col (TS) Joginder Singh, ASC  
 IC-33567 Lt Col (TS) Naresh Sitaram Kulkarni, EME  
 IC-33569 Lt Col Hanuman Prasad, Arty  
 IC-36109 Maj Surjit Singh, Arty  
 SL-2387 Lt Col Nallappan Kailai Nathan, RO

SL-2473 Maj Jas Ram Pokhriyal, RO  
 SL-2504 Lt Col Raghubar Sharan Kala, Sigs  
 SL-2745 Maj Lal Singh Ambarayan, QM  
 SL-3003 Maj Dilbag Singh Dhaka, QM  
 SL-3077 Maj Arumugam Doraiswamy, AOC  
 SL-3228 Maj Rameshwar, Sigs  
 SL-3341 Maj Surender Singh Bhandari, RO  
 SL-3419 Maj Rama Shanker Dubey, EME  
 SL-3518 Maj Shiv Charan, RO  
 RC-0570 Capt MR Pattabiraman, Engrs  
 RC-0673 Capt Chaman Lal Gupta, Sigs  
 RC-0705 Capt UT Mathew, EME

H. M. NAIK  
 Jt. Director  
 MS Retirement  
 For Military Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 515, dated 06th August 03.—The President is pleased to release the undermentioned officer from Army Service w.e.f. the date shown against her name.

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

Sqn Ldr D Bindu Rao (DS-11975F) (24719H), 29.04.2003  
 (AN)

J. L. SHARMA  
 Lt. Col  
 DGDS